

2014-2015

वार्षिक लेखा ANNUAL ACCOUNTS



BABASAHEB
BHIMRAO
AMBEDKAR
UNIVERSITY



LUCKNOW

प्रज्ञा शील करुणा
ESTABLISHED 1996

BABASAHEB BHIMRAO AMBEDKAR UNIVERSITY

(A Central University)

LUCKNOW

बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
विद्या विहार, रायबरेली रोड
लखनऊ

BABASAHEB
BHIMRAO
AMBEDKAR
UNIVERSITY



• LUCKNOW •

प्रज्ञा शील करुणा
ESTABLISHED 1996

वार्षिक लेखा
वर्ष : 2014-2015

सारणी

क्रम सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1	तुलन पत्र	1
2	आय एवं व्यय लेखा	2
	31 मार्च, 2015 को तुलन पत्र का भाग बनी अनुसूचियां	
3	अनुसूची 1- पूंजी निधि	5
4	अनुसूची 2- चिन्हित /वृत्ति निधि	6-8
5	अनुसूची 3- वर्तमान देनदारी एवं प्रावधान	9-10
6	अनुसूची 4- स्थायी परिसम्पत्तियां	11-13
7	अनुसूची 4ए - चिन्हित/वृत्ति निधि से निवेश	14
8	अनुसूची 4बी निवेश - अन्य	14
9	अनुसूची 5-वर्तमान परिसम्पत्तियां, ऋण एवं अग्रिम	15-19
	31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष हेतु आय एवं व्यय लेखा की अनुसूचियां	
10	अनुसूची 6- निधि /अनुदान (अप्रतिसंहरणीय अनुदान एवं प्राप्त आर्थिक सहायता)	23
11	अनुसूची 7- शैक्षणिक प्राप्तियां	24-25
12	अनुसूची 8-निवेशों से आय	26
13	अनुसूची 9- अन्य आय	27-28
14	अनुसूची 9ए - अवधि पूर्व आय	29
15	अनुसूची 10- स्थापना व्यय	30
16	अनुसूची 11- शैक्षणिक व्यय	31
17	अनुसूची 12- प्रशासनिक व्यय	32-33
18	अनुसूची 12 ए- परिवहन	34
19	अनुसूची 13- मरम्मत एवं अनुरक्षण	35
20	अनुसूची 13ए- वित्तीय लागत	36
21	अनुसूची 14 - अवधि पूर्व आय	37

	31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लेखा का भाग बनी अनुसूचियां	
22	प्राप्तियां एवं भुगतान लेखा	38-39
	भविष्य निधि एवं नई पेंशन योजना लेखा	
23	तुलन-पत्र-भविष्य निधि लेखा	43-44
24	आय एवं व्यय का लेखा-भविष्य निधि	45
25	प्राप्तियां एवं भुगतान लेखा-भविष्य निधि	46
26	तुलन-पत्र-नई पेंशन योजना	47
27	आय एवं व्यय का लेखा-नई पेंशन योजना	48
28	प्राप्तियां एवं भुगतान लेखा-नई पेंशन योजना	49
29	तुलन पत्र-स्थापना 2015	50
30	आय एवं व्यय लेखा-स्थापना 2015	51
31	प्राप्तियां एवं भुगतान लेखा-स्थापना 2015	52
32	तुलन-पत्र-शिक्षा	53
33	आय एवं व्यय लेखा-शिक्षा	54
34	प्राप्तियां एवं भुगतान लेखा-शिक्षा	55
35	तुलन-पत्र-नवीन पाठ्यक्रम	56
36	आय एवं व्यय लेखा-नवीन पाठ्यक्रम	57
37	प्राप्तियां एवं भुगतान लेखा-नवीन पाठ्यक्रम	58-59
38	लेखा टिप्पणी	60
39	कर्मचारियों की संख्या एवं छात्र पंजीकरण	61

बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ

तुलन पत्र - 31 मार्च, 2015

पूंजी / संग्रह निधि एवं देनदारियाँ

देनदारियां	अनुसूची	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
पूंजीगत निधि	1	1,911,360,891.51	1,701,396,058.07
चिन्हित/वृत्ति निधि	2	90,826,458.00	106,991,248.00
वर्तमान देनदारी एवं प्रावधान	3	90,267,349.00	109,945,374.19
पूर्व वर्ष समायोजन		131,098,869.00	
योग		2,223,553,567.51	1,918,332,680.26
परिसंपत्तियां			
स्थायी परिसंपत्तियां (शुद्ध ब्लॉक)			
मूर्त सम्पत्ति	4	1,373,027,424.33	517,832,061.28
अमूर्त सम्पत्ति	4	833,656.60	
क्रियाशील पूंजी	4	254,261,654.95	768,058,325.90
स्थायी परिसंपत्तियां (पिछले वर्ष से समायोजित)	4	11,160,770.06	8,542,888.00
चिन्हित/वृत्ति निधि से निवेश	4ए		
दीर्घ अवधि			
लघु अवधि			
अन्य निवेश	4बी		
वर्तमान परिसम्पत्ति	5	347,229,301.60	381,129,599.47
वर्तमान परिसम्पत्तियां, ऋण एवं अग्रिम	5ए	237,040,760.00	242,769,806.19
			-
योग		2,223,553,567.51	1,918,332,680.26

बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ
31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष हेतु आय एवं व्यय लेखा

	अनुसूची		वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
क. आय				
सहायता/ वृत्ति अनुदान	6		530,213,600.00	267,677,408.00
शैक्षणिक प्राप्तियां	7		25,423,691.83	7,716,485.71
निवेशों से आय	8		18,557,981.00	21,178,290.00
अर्जित ब्याज	8ए		0.00	0.00
अन्य आय	9		52,326,909.10	12,234,842.06
अवधि पूर्व आय	9ए		12,750,262.00	
योग(क)			639,272,443.93	308,807,025.77
ख. व्यय				
कर्मचारी वेतन एवं लाभ (स्थापान व्यय)	10		191,310,493.00	168,399,318.00
शैक्षणिक व्यय	11		39,458,980.00	50,042,718.00
प्रशासनिक व्यय एवं सामान्य व्यय	12		52,893,567.00	57,018,178.70
परिवहन व्यय	12ए		2,330,600.00	1,599,307.00
मरम्मत एवं अनुरक्षणीय	13		62,986,803.00	172,712,376.00
वित्तीय लागत	13ए		15,855.00	8,253.00
मूल्यहास	4		73,103,588.36	44,275,958.00
मूल्यहास (पिछले वर्ष से समायोजित)	4		(2,617,882.06)	(8,542,888.00)
अन्य व्यय			0.00	0.00
पूर्व अवधि व्यय	14		9,825,607.19	
योग (ख)			429,307,611.49	485,513,220.70
सरप्लस शेष/(घाटा) पूंजी निधि में ले जाया गया (क-ख)			209,964,833.44	(176,706,193.93)

31.03.2015 तक के तुलन पत्र को अनुसूची निर्माण भाग

बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ

अनुसूची 1: पूंजी निधि

धनराशि रूपये में

	विवरण	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
	वर्ष के प्रारंभ में शेष	1,701,396,058.07	1,878,102,252.00
जोड़े	पूंजीगत व्यय के उपयोग हेतु वि.अनु.आयोग, भारत सरकार और राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान		
जोड़े	समग्र निधि और चिन्हित निधियों से क्रय की गई परिसम्पत्तियां		
जोड़े	दान/उपहार स्वरूप प्राप्त परिसम्पत्तियां		
जोड़े	प्रायोजित परियोजना निधियों से क्रय की गई परिसम्पत्तियां		
जोड़े	आय एवं व्यय लेखा से स्थानांतरित सरप्लस	209,964,833.44	(176,706,193.93)
	योग	1,911,360,891.51	170,13,96,058.07
घटायें	पिछले वर्ष से समायोजित		
घटायें	आय एवं व्यय लेखा से स्थानांतरित घाटा		
	वर्ष के अंत में शेष	1,911,360,891.51	1,70,13,96,058.07

बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ

अनुसूची 2: चिन्हित विधियाँ

विवरण	अ.जा./अजजा/ पि. छात्रवृत्ति	गृह निर्माण अग्रिम निधि	डॉ. आभा मिश्रा	ईएम निधि	राजीव गांधी नेशनल फेलोशिप निधि	आरसीए	डॉ. राम चन्द्र जैव-प्रौद्योगिकी	एसएपी समाजशास्त्र	एएससी
अ) अथ शेष	1,043,737.00	1,195,961.00	202,820.00	28,781,150.00	19,094,660.00	29,684,658.00	296,447.00	142,086.00	243,962.00
ब) वर्ष में जुड़ा			429,450.00	24,891,206.00		-	-		
स) निधि निवेश से आय									
द) निधि निवेश से प्रोद्भूत ब्याज									
ई) अग्रिम से प्रोद्भूत ब्याज									
फ) बैंक बचत खाते एफडीआर से ब्याज	47,285.00	10,560.00	4,416.00	823,055.00	603,080.00	1,074,438.00	13,361.00	10,046.00	9,856.00
ज) अन्य जोड़े	-	11,280.00	26,000.00	62,037.00	-	140,936.00	-		
योग (क)	1,091,022.00	1,217,801.00	662,686.00	54,557,448.00	19,697,740.00	30,900,032.00	309,808.00	152,132.00	253,818.00
ख. निधियों के उद्देश्यों में उनका उपयोग/व्यय									
1) राजस्व व्यय	-		435,254.00	22,470,952.00	11,962,827.00	12,303,546.00	309,808.00	152,065.00	
2) पूंजीगत व्यय			-	-	-	-	-		
3) निवेश/एफडीआर		-							
योग (ख)	-	-	435,254.00	22,470,952.00	11,962,827.00	12,303,546.00	309,808.00	152,065.00	-
वर्ष के अन्त में इति शेष(क-ख)	1,091,022.00	1,217,801.00	227,432.00	32,086,496.00	7,734,913.00	18,596,486.00	-	67.00	253,818.00
प्रतिनिधित्व									
नकद एवं बैंक बैलेंस	1,091,022.00	317,801.00	227,432.00	27,586,496.00	7,734,913.00	18,596,486.00	-	67.00	253,818.00

निवेश/एफडीआर		900,000.00		4,500,000.00					
निवेश पर प्रोद्भूत ब्याज परन्तु देय नहीं									
अग्रिम पर प्रोद्भूत ब्याज परन्तु देय नहीं									
मार्च के वेतन से वसूली जाने वाली राशि									
वर्तमान वर्ष	1,091,022.00	1,217,801.00	227,432.00	32,086,496.00	7,734,913.00	18,596,486.00	-	67.00	253,818.00
पूर्व वर्ष	1,043,737.00	1,195,961.00	202,820.00	28,781,150.00	19,094,660.00	29,684,658.00	296,447.00	142,086.00	243,962.00

अनुसूची 2-चिन्हित/वृत्ति निधियाँ

विवरण	डॉ नरेन्द्र कुमार-डीईएस	पेंशन फंड	स्टार्ट अप अनुदान	प्रो नरेन्द्र कुमार-यूजीसी एमआरपी	डॉ आनंद प्रकाश-डीएसटी	डॉ गौरव कैथवास	डॉ राम नरेश भार्गव	डॉ सुदित साहा	एसबीआई	योग
अ) अथ शेष	51,354.00	8,424,397.00	1,722,221.00	441,565.00	73,440.00	2,686,432.00	2,413,426.00	697,772.00		106,991,248.00
ब) वर्ष में जुड़ा	-	-	-	-	590,400.00	-	550,000.00	-	6,930,751.00	54,747,440.00
स) निधि निवेश से आय										
द.) निधि निवेश से प्रोद्भूत ब्याज										
ई). अग्रिम से प्रोद्भूत ब्याज										
फ) बैंक बचत खाते एफडीआर से ब्याज	851.00	340,345.00	58,668.00	4,936.00	13,615.00	75,931.00	31,686.00	12,084.00		3,723,845.00
ज) अन्य जोड़े	5,000.00	-	79,099.00		9,026.00		43,708.00	8,000.00		2,308,345.00
योग (क)	57,205.00	8,764,742.00	1,859,988.00	446,501.00	686,481.00	2,762,363.00	3,038,820.00	717,856.00	6,930,751.00	167,770,878.00
ख. निधियों के उद्देश्यों में उनका उपयोग/व्यय										
1) राजस्व व्यय	52,000.00		445,132.00	446,501.00	428,247.00	635,286.00	693,957.00	356,730.00	3,662,813.00	72,692,833.00
2) पूंजीगत व्यय						1,942,791.00	1,861,713.00	324,906.00		4,251,587.00
3) निवेश/एफडीआर										
योग (ख)	52,000.00	-	445,132.00	446,501.00	428,247.00	2,578,077.00	2,555,670.00	681,636.00	3,662,813.00	76,944,420.00
वर्ष के अन्त में इति शेष(क-ख)	5,205.00	8,764,742.00	1,414,856.00	-	258,234.00	184,286.00	483,150.00	36,220.00	3,267,938.00	90,826,458.00
प्रतिनिधित्व										
नकद एवं बैंक बैलेंस	5,205.00	8,764,742.00	1,414,856.00	-	258,234.00	184,286.00	483,150.00	36,220.00	3,267,938.00	85,426,458.00
निवेश/एफडीआर										5,400,000.00
निवेश पर प्रोद्भूत ब्याज परन्तु देय नहीं										-
अग्रिम पर प्रोद्भूत ब्याज परन्तु देय नहीं										
मार्च के वेतन से वसूली जाने वाली राशि										
वर्तमान वर्ष	5,205.00	8,764,742.00	1,414,856.00	-	258,234.00	184,286.00	483,150.00	36,220.00	3,267,938.00	90,826,458.00
पूर्व वर्ष	51,354.00	8,424,397.00	1,722,221.00	441,565.00	73,440.00	2,686,432.00	2,413,426.00	697,772.00		106,991,248.00

अनुसूची 3: वर्तमान देनदारियां एवं प्रावधान

क. वर्तमान देनदारियां	31-03-2015 को	जोड़े	31-03-2014 को
अनसूचित जाति / जनजाति प्रकोष्ठ	7,400.00		7,400.00
छुट्टी वेतन पेंशन अंशदान-गैर योजना	48,307.00		48,307.00
बयाना राशि जमा	1,388,960.00		1,388,960.00
समूह बीमा योजना / जीएसएलआईएस	151,153.00	(960)	152,113.00
रोकी गई धनराशि-योजनागत	3,872,947.00	(5,872,889)	9,745,836.00
सामान्य भविष्य निधि की देनदारी	17,380,399.00	16.00	17,380,383.00
अंशदायी भविष्य निधि की देनदारी	2,987,041.00		2,987,041.00
भविष्य निधि देनदारी	25,318,255.00		30,188,771.00
नई पेंशन योजना देनदारी	4,493,559.00		10,724,127.19
शिक्षा	2,303,669.00		8,591,230.00
नवीन पाठ्यक्रम	6,204,167.00		3,528,767.00
चिकित्सा अग्रिम	466,274.00	444,999.00	21,275.00
राज्य सरकार को देय धनराशि	2,305,065.00		2,305,065.00
जमानत जमा	957,883.00	42,732.00	915,151.00
अवधान राशि जमा	475,305.00		475,305.00
यथानुपात पेंशन	311,388.00		311,388.00
सीईए- वसूली-गैर योजना	208,000.00		208,000.00
अनुरक्षण भत्ता	3,400.00	(2,000.00)	5,400.00
कर्मचारियों के वेतन / अग्रिम से वसूली	1,616,036.00		1,616,036.00
भारतीय जीवन बीमा निगम	25,508.00	3,508.00	22,000.00
विविध पावतियां (देनदारी)	2,430,000.00		2,430,000.00
प्रतिधारण राशि	2,768,350.00	(103,547.00)	2,871,897.00
दंड	950,427.00		950,427.00
सी.वी.रमन अन्तर्राष्ट्रीय फेलोशिप	787.00	(3,686.00)	4,473.00
छान	68,568.00		68,568.00
योग (क)	76,742,848.00	(5,491,827.00)	96,947,920.19

ख. प्रावधान			
टीडीएस हेतु	-	(15,875.00)	15,875.00
केन्द्रीय सुविधा यूसिक देय (योजना)	-	(16,290.00)	16,290.00
अन्य (फर्नीचर एवं वाहन) देय	-	(431,025.00)	431,025.00
अन्य संस्थानों को प्रेषण	79,263.00		79,263.00
योग	79,263.00	(463,190.00)	542,453.00
15. प्रावधान गैर योजना			-
कुलपति कार्यालय वेतन	248,797.00	21,663.00	227,134.00
वेतन गैर-शैक्षणिक कर्मचारी (वित्त एवं कुलसचिव कार्यालय)	2,997,174.00	21,308.00	2,975,866.00
पेंशन	103,116.00	98,979.00	4,137.00
परिवार पेंशन	16,560.00	3,199.00	13,361.00
उपकरण, डॉ. आनन्द प्रकाश	62,782.00		62,782.00
परीक्षक का पारीश्रमिक	129,345.00		129,345.00
वेतन शैक्षिक	3,910,440.00	299,173.00	3,611,267.00
अन्य	77,541.00		77,541.00
योग (ख)	7,545,755.00	444,322.00	7,101,433.00
योग (क+ख)	84,367,866.00	(5,510,695.00)	104,591,806.19
प्रावधान- बारहवीं योजना			-
वेतन-शिक्षण	4,997,635.00	223,899.00	4,773,736.00
वेतन-गैर शिक्षण	445,336.00	280,976.00	164,360.00
वेतन-सीएसएसईआईपी शिक्षण	307,419.00	28,057.00	279,362.00
वेतन-सीएसएसईआईपी गैर-शिक्षण	149,093.00	12,983.00	136,110.00
योग (ग)	5,899,483.00	545,915.00	5,353,568.00
योग (क+ख +ग)	90,267,349.00	(4,964,780.00)	109,945,374.19

अनुसूची 4- स्थायी परिसम्पत्तियां

क्रम सं.	विवरण	कुल ब्लॉक			मूल्यहास			शुद्ध ब्लॉक						
		मूल्य हास की दर 0	वर्ष के प्रारंभ में लागत/ मूल्यांकन	वर्ष के दौरान जुड़ा	कटौती/ टीआरएफ डब्ल्यू आई पी/ पूर्व वर्ष समायोजन	वर्ष की संपत्तियों में लागता/ मूल्यांकन	वर्ष के प्रारंभ में	वर्ष के दौरान जुड़ी	वर्ष के अंत तक योग	वर्ष के अंत तक योग	31.03.2015 को समाप्त चालू वर्ष के दिन की स्थिति	31.03.2015 को समाप्त पूर्व वर्ष के दिन की स्थिति		
				30.9.2014 तक	बाद 30.09.2013	योग								
क. स्थायी परिसम्पत्तियां														
	1. भूमि													
	a) फी होल्ड													
	b) लीज होल्ड						146,553,297.00				146,553,297.00	146,553,297.00		
	2. भवन													
	a) फी होल्ड पर													
	b) लीज होल्ड पर													
	i. भवन एवं वस्तुविद्या कार्य	10.00	11,884,942.15				11,884,942.15	10,170,637.86	1,188,494.22		11,359,132.08	10,696,447.94	11,884,942.15	
	ii. प्रशासनिक कार्य	10.00	31,961,029.72				31,961,029.72	10,954,203.21	3,196,102.97		14,150,306.18	28,764,926.75	31,961,029.72	
	iii. महिला छात्रावास	5.00	37,803,273.96	0			8,028,144.00	29,775,129.96	14,940,735.05	1,488,756.50	16,429,491.55	28,286,373.46	37,803,273.96	
	iv. बाउन्ड्री वॉल	5.00	979,903.57					979,903.57	274,281.43	48,995.18	323,276.61	930,908.39	979,903.57	
	v. साइट/परिसर विकास	5.00	13,867,738.98	11,591,439.00	1,259,468.00	12,850,907.00	26,718,645.98	8,846,223.03	1,304,445.60		10,150,668.63	25,414,200.38	13,867,738.98	
	vi. मास्टर प्लान हेतु एनबीसीसी का परामर्श शुल्क	5.00	1,294,555.23					1,294,555.23	981,384.22	64,727.76	1,046,111.98	1,229,827.47	1,294,555.23	
	vii. उ.प्र.रा.नि.नि. को परामर्श शुल्क	5.00	298,392.37					298,392.37	226,207.63	14,919.62	241,127.25	283,472.75	298,392.37	
	viii. अम्बेडकर अध्ययन विद्यापीठ एवं अतिथि गृह भवन का निर्माण	5.00	10,940,305.29					10,940,305.29	6,983,855.71	547,015.26	7,530,870.97	10,393,290.03	10,940,305.29	
	ix. कुलपति ब्लॉक की साज-सज्जा	5.00	48,060.31					48,060.31	36,433.69	2,403.02	38,836.71	45,657.29	48,060.31	
	x. छात्रावास/अतिथि गृह हेतु अवसंरचना सुविधायें।	5.00	970,751.88					970,751.88	361,299.12	48,537.59	409,836.71	922,214.29	970,751.88	
	xi. परिषद हॉल की साज-सज्जा	5.00	1,291,959.60					1,291,959.60	566,177.40	64,597.98	630,775.38	1,227,361.62	1,291,959.60	
	xii. प्रत्येक 272 की क्षमता वाले दो पुरुष छात्रावास	5.00	128,425,459.40	3,929,732.00		3,929,732.00	132,355,191.40	14,274,002.61	6,617,759.57		20,891,762.18	125,737,431.83	128,425,459.40	
	xiii. केन्द्रीय पुस्तकालय	5.00			310,663,633.50	310,663,633.50		310,663,633.50		7,766,590.84		7,766,590.84	302,897,042.66	
	3. प्रयोगशाला उपकरण-यूएसआईसी	15.00	23,760,945.24					23,760,945.24	3,150,780.77	3,564,141.79	3,256,577.00	3,458,345.56	20,196,803.45	23,760,945.24
	4. वाहन	15.00	7,611,096.32	1,502,523.00		1,502,523.00		9,113,619.32	4,005,517.46	1,367,042.90	801,168.00	4,571,392.36	7,746,576.42	7,611,096.32
	5. फर्नीचर एवं फिक्चर्स	10.00	14,307,258.96	6,372,237.00		15,869,527.00		36,549,022.96	2,116,827.05	2,861,425.95		4,978,253.00	33,687,597.01	14,307,258.96
	6. कार्यालय उपकरण	15.00	913,826.84					913,826.84	5,060,093.16	137,074.03		5,197,167.19	776,752.81	913,826.84
	7. ओवर हेड टैंक 1000 कि ली/नलकूप	5.00			43,518,860.00	43,518,860.00		43,518,860.00		1,087,971.50		1,087,971.50	42,430,888.50	
	8. विद्युत संस्थापन (सब स्टेशन)	10.00	1,446,389.32					1,446,389.32	8,111,072.68	144,638.93		8,255,711.61	1,301,750.39	1,446,389.32
	9 पुस्तक एवं पत्रिकायें	60.00	6,281,491.20	499,405.00		16,361,997.00	16,861,402.00	12,287,072.00	35,429,965.20	26,227,747.81		35,204,884.63	26,452,828.38	6,281,491.20
	10. नलकूप एवं जलापूर्ति	15.00	135,443.27					135,443.27	1,199,857.43	20,316.49		1,220,173.92	115,126.78	135,443.27

11. कार्यालय कम्प्यूटरीकरण	60.00	4,373,143.80	8,358,973.00	56,722.00	8,415,695.00		12,788,838.80	13,183,912.20	7,656,286.68		20,840,198.88	5,132,552.12	4,373,143.80
12. फर्नीचर एवं अन्य पूंजी मद	10.00	6,137,778.63					6,137,778.63	8,284,750.37	613,777.86		8,898,528.23	5,524,000.77	6,137,778.63
13. ईपीबीएबीएक्स	15.00	37,008.13					37,008.13	327,840.87	5,551.22		333,392.09	31,456.91	37,008.13
14. उपकरण	15.00	50,132,775.80	11,148,672.00	12,103,632.00	23,252,304.00		73,385,079.80	35,800,587.77	10,099,989.57	1,984,659.00	47,885,236.34	63,285,090.23	50,132,775.80
15. पुस्तकालय उपकरण	15.00	87,949.65					87,949.65	178,556.35	13,192.45	4,886.00	186,862.80	74,757.20	87,949.65
16. विभागीय उपकरण	15.00	9,718,376.03					9,718,376.03	3,647,523.97	1,457,756.40	539,910.00	4,565,370.37	8,260,619.63	9,718,376.03
17. बर्चुअल क्लास रूम का निर्माण	15.00	470,647.44					470,647.44	316,327.16	70,597.12		386,924.28	400,050.32	470,647.44
18. पर्यावरण विज्ञान विद्यापीठ भवन की साज सज्जा	5.00	2,983,703.58					2,983,703.58	578,590.42	149,185.18		727,775.60	2,834,518.40	2,983,703.58
19. रेयरिंग हाउस का विस्तार	5.00	3,114,557.61					3,114,557.61	258,448.40	155,727.88		414,176.28	2,958,829.73	3,114,557.61
20. प्रेक्षागृह का निर्माण	5.00			279,221,210.00	279,221,210.00		279,221,210.00		6,980,530.25		6,980,530.25	272,240,679.75	
21. स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण	5.00			22,791,325.00	22,791,325.00		22,791,325.00		569,783.13		569,783.13	22,221,541.88	
22. बाह्य सर्विस रोड, ड्रेनेज/फुटपाथ आदि का निर्माण	5.00			124,704,410.00	124,704,410.00		124,704,410.00		3,117,610.25		3,117,610.25	121,586,799.75	
23. जैव विज्ञान / जैव प्रौद्योगिकी का निर्माण	5.00												
24. डॉ. अम्बेडकर की प्रतिमा का स्थानांतरण	5.00			15,898,641.75	15,898,641.75		15,898,641.75		397,466.04		397,466.04	15,501,175.71	
25. विधि अध्ययन विद्यापीठ भवन का निर्माण	5.00			34,638,177.70	34,638,177.70		34,638,177.70		865,954.44		865,954.44	33,772,223.26	
26. केन्द्रीय सुविधा का निर्माण	5.00			3,192,157.00	3,192,157.00		3,192,157.00		79,803.93		79,803.93	3,112,353.08	
योग (क)		517,832,061.28	43402981.00	880279760.95	923682741.95	20,315,216.00	1445773731.23	181063874.83	72746306.90	2617882.00	251192299.73	1373027424.33	517,832,061.28
ख. चालू पूंजी कार्य													
(अ) निर्माण क्रिया कलापों के लिए केलों निर्माण विभाग को अग्रिम जमा कार्य के रूप में भुगतान													
1 वाह्य सेवाओं, सड़क, जल निकाली/फुटपाथ का निर्माण		103,437,633.00	21,266,777.00		21,266,777.00	124,704,410.00							103,437,633.00
2. दुकान का निर्माण			1,036,751.00	1,493,273.00	2,530,024.00		2,530,024.00					2,530,024.00	
3. मूट कोर्ट का निर्माण				3,843,533.00	3,843,533.00		3,843,533.00					3,843,533.00	
4. परीक्षा हाल का निर्माण			8,619,243.00	2,595,855.00	11,215,098.00		11,215,098.00					11,215,098.00	
5. महिला छात्रावास का नवीनीकरण			1,230,925.00		1,230,925.00	8,028,144.00	9,259,069.00					9,259,069.00	
6. विशाखा पुरुष छात्रावास का निर्माण			39,941,750.00		39,941,750.00		39,941,750.00					39,941,750.00	
7. केन्द्रीय सुविधा का निर्माण /सुजन		1,267,661.00	1,924,496.00		1,924,496.00	3,192,157.00							1,267,661.00
8. केन्द्रीय पुस्तकालय का निर्माण		260,398,737.50	50,264,896.00		50,264,896.00	310,663,633.50							260,398,737.50
9. 1200 क्षमता वाले प्रेक्षागृह का निर्माण		236,973,587.00	42,247,623.00		42,247,623.00	279,221,210.00							236,973,587.00
10. जैव विज्ञान एवं जैव प्रौद्योगिकी भवन चरण-1 का निर्माण		55,257,301.95	2,609,283.00		2,609,283.00		57,866,584.95				57,866,584.95		55,257,301.95
11. डॉ. अम्बेडकर की प्रतिमा का स्थानांतरण		14,751,486.75	1,147,155.00		1,147,155.00	15,898,641.75							14,751,486.75
12. विधि अध्ययन विद्यापीठ भवन का निर्माण		32,701,733.70	1,936,444.00		1,936,444.00	34,638,177.70							32,701,733.70
13. स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण		19,751,325.00	3,040,000.00		3,040,000.00	22,791,325.00							19,751,325.00
14. ओवर हेड टैंक 1000 किलो/नलकूप		43,518,860.00					43,518,860.00						43,518,860.00
15. अम्बेडकर भवन का निर्माण							129,605,596.00					129,605,596.00	

स. अप्रत्यक्ष सम्पत्ति कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	कुल योग (बी)		768058325.90	175265343.00	7,932,661.00	183198004.00	972262154.95	124,656,058.95	-	-	-	-	254261654.95	768058325.90
					-	1,190,938.00	1,190,938.00		1,190,938.00		357,281.40		357,281.40	833,656.60
	कुल योग (सी)	60	-	-	1,190,938.00	1,190,938.00	-	1,190,938.00	-	357,281.40	-	357,281.40	833,656.60	-
कुल योग (A + B+C)			1285890387.24	218668324.06	889403360.01	1108071684.01	992577371.01	1571620728.24	181063874.89	73103588.36	2617882.06	251549581.19	1628122735.94	1285890387.24

अनुसूची 4 ए चिन्हित/वृत्ति निधि से निवेश

	विवरण	वर्तमान वर्ष	विवरण	विवरण
1	केन्द्र सरकारी की प्रतिभूतियों में			
2	राज्य सरकारी की प्रतिभूतियों में			
3	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में			
4	शेयर			
5	डीबंचर एवं बॉड			
6	बैंक में सावधि जमा			
7	अन्य (स्पष्ट करें)			
	कुल योग ए	-	-	-

अनुसूची 4 बी निवेश - अन्य

	विवरण	वर्तमान वर्ष	विवरण	विवरण
1	केन्द्र सरकारी की प्रतिभूतियों में			
2	राज्य सरकारी की प्रतिभूतियों में			
3	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में			
4	शेयर			
5	डीबंचर एवं बॉड			
6	बैंक में सावधि जमा			
7	अन्य (स्पष्ट करें)			
	कुल योग ए	-	-	-

अनुसूची 5: वर्तमान परिसम्पत्तियां

	विवरण	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
अ	वर्तमान परिसम्पत्तियां :		
1	इन्वेन्टरीज-स्टेशनरी सफाई सामग्री, भवन सामग्री, विद्युत सामग्री, प्रयोगशाला रसायन एवं स्पेयर्स, तथा जलापूर्ति सामग्री		
2	रोकड़ एव बैंक जमा शेष ::		
a	रोकड़ शेष	268,673.00	250,271.00
b	अनुसूचित बैंको के पास बैंक जमा शेष		
	-बचत खातों में (परिशिष्ट-क)	346,960,628.60	380,879,328.47
	- चालू खातों में		
	- जमा खातों में		
3	विविध देनदारियाँ		
	योग अ	347,229,301.60	381,129,599.47

अनुसूची 5ए: ऋण एवं अग्रिम एवं जमा

		31-3-2015 को	जोड़े	31-3-2014 को
1	कर्मचारियों को अग्रिम (ब्याज रहित)			
	a. वेतन	6,027,080.00	2,693,714.00	3,333,366.00
	b. त्यौहा	72,075.00	600.00	71,475.00
	c. चिकित्सा अग्रिम	-		
	d. अन्य	-		
	e. एलटीसी अग्रिम	5,395,966.00	1,591,684.00	3,804,282.00
	f. यात्रा भत्ता अग्रिम	149,005.00	67,261.00	81,744.00
2	कर्मचारियों को दीर्घ अवधि ऋण (ब्याज सहित)	-		
	a. वाहन	2,032,878.00	(254,198.00)	2,287,076.00
	b. साईकिल	593,859.00	4,875.00	588,984.00
	c. गृह ऋण	63,466.00		63,466.00
	d. अन्य	-		
	e. कम्प्यूटर अग्रिम	1,088,317.00	(7,392.00)	1,095,709.00
3	नकद वसूली योग्य अग्रिम एवं अन्य राशि	-		
	वस्तु या मूल्य प्राप्त:	-		
	a. पूंजीगत राशि पर	209,714,083.00		209,714,083.00
	b. अतिरिक्त भूमि पर 10 प्रतिशत सरकार को भुगतान	10,000,000.00		10,000,000.00
	c. अन्य	420,000.00		420,000.00
	d. विकास निधि (XI th Plann) – योजना	1,030,220.00		1,030,220.00
	e. आरएलसी में जमा (गैर-योजना)	42,410.00		42,410.00
4	पूर्व भुगतान व्यय	-		
	a. बीमा	-		
	b. अन्य व्यय	-		

5	जमा	-		
	a. टेलीफोन	-		
	B लीज किराया	-		
	c. बिजली	-		
	d. अन्य	-		
6	अर्जित आय	-		
	a. निवेश पर – चिन्हित निधि	-		
	b. निवेश पर – अन्य	-		
	c. ऋण एवं अग्रिम पर	-		
	d. अन्य (प्राप्त आय देय अनरियलाईज्ड)	-		
7	यूजीसी/प्रायोजित परियोजनाओं वसूली योग्य अन्य वर्तमान परिसम्पत्तियाँ	-		
	a. प्रायोजित परियोजनाओं में डेबिट शेष	-		
	b. प्रायोजित फेलोशिप में डेबिट शेष	-		
	c. वसूली योग्य अनुदान	-		
	d. यूजीसी से अन्य वसूली	-		
8	प्राप्त दावा	-		
	a. उच्च न्यायालय में जमा	408,801.00		408,801.00
	b. नई पेंशन योजना	-	(9,814,310.19)	9,814,310.19
	c. सा भ नि अग्रिम वसूली	2,600.00		2,600.00
	d. भवन की मरम्मत (योजना)	-	(11,280.00)	11,280.00
	योग (B)	237,040,760.00	(5,729,046.19)	242,769,806.19

संलग्नक - (क)

बैंक जमा नाम

धनराशि रूपये में

बचत बैंक खाता	2014-15	2013-2014
केनरा बैंक, गैर योजना खाता-60	5,135,068.58	90,518,584.65
केनरा बैंक, डॉ. आनन्द प्रकाश डीएसटी (2922)	258,234.00	73,440.00
केनरा बैंक (डॉ. आभा मिश्रा जैव प्रौद्योगिकी परियोजना) 2783	227,432.00	202,820.00
केनरा बैंक, योजना खाता संख्या-(779)	36,147,479.57	124,988,777.57
केनरा बैंक, अम्बेडकर अध्ययन केन्द्र -2167	253,818.00	243,962.00
केनरा बैंक सीएसएसईआईपी (2641)	444,284.00	395,163.00
केनरा बैंक डेब्ट डिपॉजिट (खाता संख्या-0190)	818,255.00	5,688,771.18
केनरा बैंक, डॉ. आनन्द प्रकाश डीबीटी परियोजना (2767)	409,910.00	652,228.00
केनरा बैंक, डॉ. आनन्द प्रकाश यूजीसी एमआरपी परियोजना (2921)	92,077.00	367,614.00
केनरा बैंक, डॉ. नवीन कुमार अरोड़ा यूजीसी एमआरपी परियोजना (2840)	14,402.00	11,252.00
केनरा बैंक ईएमएफ ,(191)	27,586,496.00	24,281,150.03
केनरा बैंक (एचबीए रिवाँल्विंग फंड 0279)	317,801.00	295,961.00
केनरा बैंक, प्रो. नरेन्द्र कुमार, आईसीएसएसआर परियोजना (3086)	785,430.00	628,443.00
केनरा बैंक जेआरएफ (2904)	5,407,436.00	108,056.00
केनरा बैंक मीडिया सेन्टर (4045)	7,950,829.00	7,632,404.00
केनरा बैंक नई पेंशन योजना (555)	3,993,559.00	10,224,127.19
केनरा बैंक पेंशन निधि खाता संख्या- (4047)	8,764,742.00	8,424,397.00
केनरा बैंक 12वीं योजना (3895)	206,931,972.45	35,747,822.45
केनरा बैंक, प्रो. नरेन्द्र कुमार, पॉलिटिकल साइंस यूजीसी एमआरपी परियोजना (4064)	-	441,565.00
केनरा बैंक प्रो राम चन्द्र (2817)	-	296,447.00
केनरा बैंक आरसीए (2086)	18,596,486.00	29,684,658.00
केनरा बैंक आरजीएनएफ (2600)	7,734,913.00	19,094,660.00
केनरा बैंक (एसएपी समाजशास्त्र 2841)	67.00	142,086.40
केनरा बैंक एससी/एसटी छात्रवृत्ति (0081)	1,091,022.00	1,043,737.00

केनरा बैंक स्टार्टअप ग्रांट खाता संख्या- (4063)	1,414,856.00	1,722,221.00
केनरा बैंक, यूजीसी एमआरपी परियोजना डॉ. नरेन्द्र कुमार, डीईएस (4046)	5,205.00	51,354.00
शिक्षा (5155)	2,303,669.00	8,591,230.00
डॉ. गौरव कैथवाज (5292)	184,286.00	2,686,432.00
डॉ. राम नरेश भार्गव (5293)	483,150.00	2,413,426.00
डॉ. सुदिप्ता साहा (5294)	36,220.00	697,772.00
वित्त अधिकारी, बी.बी.ए.यू., लखनऊ (नवीन पाठ्यक्रम-5295)	6,204,167.00	3,528,767.00
भर्ती 6233	49,232.00	-
डीएसटी सीपीआर 6298	50,192.00	-
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	3,267,938.00	
कुल योग	346,960,628.60	380,879,328.47

31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के आय एवं व्यय लेखा का अनुसूचियां निर्माण भाग

अनुसूची-6 अनुदान/आर्थिक सहायता

धनराशि रूपये में

विवरण	योजना			योग योजना	गैर योजना	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
	भारत सरकार	यूजीसी			यूजीसी	योग	योग
		योजना	12वीं योजना				
शेष अग्रेनीत							
जोड़े: वर्ष की प्राप्तियां		342,200.00	425,260,000.00	425,602,200.00	104,611,400.00	530,213,600.00	317,677,408.00
योग		342,200.00	425,260,000.00	425,602,200.00	104,611,400.00	530,213,600.00	317,677,408.00
घटायें: यूजीसी की वापसी					-	-	-
शेष		342,200.00	425,260,000.00	425,602,200.00	104,611,400.00	530,213,600.00	317,677,408.00
घटायें: पूंजी व्यय (क) हेतु प्रयोग (शिक्षा विद्यापीठ के निधि का स्थानान्तरण)						-	-
शेष		342,200.00	425,260,000.00	425,602,200.00	104,611,400.00	530,213,600.00	267,677,408.00
घटायें: राजस्व व्यय (ख) हेतु प्रयोग							-
शेष अग्रेनीत (ग)		342,200.00	425,260,000.00	425,602,200.00	104,611,400.00	530,213,600.00	267,677,408.00

अनुसूची 7: शैक्षिक प्राप्तियां

धनराशि रूपये में

	विवरण	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
	क. विद्यार्थियों से शुल्क		
	अ) शैक्षिक	13,358,725.00	7,279,006.71
	1 ट्यूशन शुल्क		
	2. प्रवेश शुल्क	4,864,500.00	
	3. पंजीकरण शुल्क		
	4. पुस्तकालय प्रवेश शुल्क		
	5. प्रयोगशाला शुल्क		
	6. कला एवं हस्तशिल्प		
	7. पंजीकरण शुल्क		
	8. सिलेबस शुल्क		
	योग (अ)	18,223,225.00	7,279,006.71
	ब) परीक्षा		
	1. प्रवेश शुल्क		
	2. वार्षिक परीक्षा शुल्क		
	3. अंक पत्र शुल्क		
	4. प्रवेश परीक्षा शुल्क		
	योग (ब)	-	
	स) अन्य शुल्क	4,633,749.83	437,479.00
	1. परिचय पत्र शुल्क		
	2. जुर्माना/विविध शुल्क		
	3. चिकित्सा शुल्क	67,000.00	
	4. परिवहन शुल्क		
	5. छात्रावास शुल्क	2,499,717.00	
	योग (स)	7,200,466.83	437,479.00

	प्रकाशनों की बिक्री		
	1. प्रवेश फार्म की बिक्री		
	2. सिलेबस/प्रश्न पत्रों की बिक्री		
	3. प्रवेश फार्म सहित विवरण की बिक्री		
	योग (द)	-	
	अन्य शैक्षणिक प्राप्तियाँ		
	1. कार्याशाला एवं कार्यक्रम हेतु पंजीकरण शुल्क		
	2. पंजीकरण शुल्क (एकेडमिक स्टाफ कालेज)		
	योग (ई)	-	
	योग (अ+ब+स+द+ई)	25,423,691.83	7,716,485.71

अनुसूची 8: निवेश से आय

धनराशि रूपये में

विवरण	चिन्हित/वृत्ति निधियां		योजना/गैर योजना	
	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
1. ब्याज				
अ. सरकारी प्रतिभूतियों पर				
ब. ऋण पत्र एवं बंध पत्र पर				
2. अनुसूचित बैंको में सावधि जमा पर				
3. (एचबीए एवं एमसीए) (प्रोद्भूत) अग्रिम पर			337,099.00	45,730.00
4. अनुसूचित बैंको के बचत खातों में	3,723,845.00	4,401,047.00	18,220,882.00	21,132,560.00
योग	3,723,845.00	4,401,047.00	18,557,981.00	21,178,290.00
संबंधित चिन्हित/वृत्ति निधि को स्थानांतरित				
अवशेष		शून्य		

अनुसूची 9- अन्य आय

धनराशि रूपये में

	विवरण	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
	अ) भूमि एवं भवन से आय		
1.	अतिथि गृह से किराया	2,075,863.10	37,520.00
2.	आवास से लाइसेन्स शुल्क	343,989.00	373,213.00
3.	परिवहन के प्रयोग हेतु प्रभार	9,520.00	-
4.	जल एवं विद्युत प्रभार	1,705,651.00	712,640.00
5.	छुट्टी वेतन और पेंशन अंशदान		-
6.	प्रायोजित योजनाओं/परामर्श परियोजनाओं से आय		1,120,484.00
7.	वसूली	24,816,526.00	146,954.00
8.	विविध आय (अप्रयोज्य भंडार/रद्दी कागज, निविदा पत्र, दण्ड एवं अन्य विविध आय)	23,375,360.00	9,844,031.06
	योग	52,326,909.10	12,234,842.06
	ब) संस्थान के प्रकाशनों की बिक्री		
	स) कार्यक्रमों के आयोजन से आय		
1	वार्षिक समारोह/खेल प्रतियोगिता से प्राप्त सकल आय		
	घटाएं : वार्षिक समारोह/खेल प्रतियोगिता आयोजन पर हुआ व्यय		
2	सकल : मेला आयोजन से प्राप्तियां		
	घटाएं : मेला आयोजन पर हुआ व्यय		
3	सकल : शैक्षणिक टूर से प्राप्ति		
	सकल : शैक्षणिक टूर से व्यय		
4	अन्य (अलग से वर्णित एवं घोषित करें)		
	योग		-

	द) अन्य		
1	परामर्श से आय		
2	आरटीआई शुल्क		
3	राय्यल्टी से आय		
4	भर्ती आवेदन फार्म की बिक्री से आय		
5	विविध प्राप्तियाँ (टेंडर फार्म, रद्दी आदि की बिक्री)		
6	परिसम्पत्तियों की बिक्री/निस्तरण से लाभ		
	अ) स्वयं की परिसम्पत्ति		
	ब) निःशुल्क प्राप्त परिसम्पत्ति		
7	संस्थानों, कल्याण निकायों एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से प्राप्त अनुदान/दान		
8	अन्य (स्पष्ट करें)		
	योग		
	सकल योग (अ+ब+स+द)	52,326,909.10	12,234,842.06

अनुसूची 9ए- पूर्व अवधि आय

धनराशि रूपये में

	विवरण	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष				
1	पुस्तक एवं जर्नल	12,287,072.00			Trf Due to Audit Remarks		
2	टीडीएस हेतु	15,875.00					
3	केन्द्रीय सुविधा देय (योजना)	16,290.00					
4	अन्य (फर्नीचर एवं वाहन योजना) देय	431,025.00					
	योग	12,750,262.00	-				

अनुसूची 10- स्थापना व्यय

धनराशि रूपये में

विवरण	वर्तमान वर्ष				पूर्व वर्ष			
	12वीं योजना	योजनागत	गैर योजनागत	योग	12वीं योजना	योजनागत	गैर योजनागत	योग
a वेतन, मजदूरी एवं भत्ते	71,823,643.00		95,489,163.00	167,312,806.00	66,798,942.00	-	85,272,057.00	152,070,999.00
b भविष्य निधि अंशदान			-	-		-	454,983.00	454,983.00
c अन्य निधियों को अंशदान (नई पेंशन योजना)	4,455,852.00		2,446,630.00	6,902,482.00	4,027,648.00	-	2,001,506.00	6,029,154.00
d बोनस	34,540.00		259,508.00	294,048.00	34,540.00		246,842.00	281,382.00
e छुट्टी यात्रा रियायत (एलटीसी)			48,920.00	48,920.00			3,267,844.00	3,267,844.00
f चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति			2,553,627.00	2,553,627.00			510,000.00	510,000.00
g सीजीएचएस योजना में अंशदान								-
h ट्यूशन शुल्क प्रतिपूर्ति								-
i कर्मचारी कल्याण व्यय								-
j कर्मचारी सेवानिवृत्ति एवं सेवानिवृत्ति लाभ (पेंशन, ग्रेज्युटी, छुट्टी नकदीकरण)	181,069.00		10,568,280.00	10,749,349.00	221,512.00		2,406,067.00	2,627,579.00
k शुल्क एवं मानदेय	2,672,078.00		211,707.00	2,883,785.00	2,012,937.00	-	338,048.00	2,350,985.00
l छुट्टी वेतन एवं पेंशन अंशदान	92,697.00			92,697.00	117,352.00		247,497.00	364,849.00
m अन्य -परिवार पेंशन			472,779.00	472,779.00			441,543.00	441,543.00
कुल योग	79,259,879.00	-	112,050,614.00	191,310,493.00	73,212,931.00	-	95,186,387.00	168,399,318.00

अनुसूची 11- शैक्षणिक व्यय

धनराशि रूपये में

	विवरण	वर्तमान वर्ष				पूर्व वर्ष			
		12वीं योजना	योजना	गैर योजना	योग	12वीं योजना	योजना	गैर योजना	योग
1	प्रयोगशाला संचालन व्यय	797,110.00		8,345,950.00	9,143,060.00	2,139,433.00		4,401,536.00	6,540,969.00
2	क्षेत्रकार्य/सम्मेलनों में भागीदारी	545,994.00		1,996,932.00	2,542,926.00	3,693,426.00		6,463,701.00	10,157,127.00
3	शिक्षण सहायता				-				-
4	सेमिनार/कार्यशाला	4,481,158.00	771,460.00		5,252,618.00				-
5	एनकेएन वर्चुअल क्लासरूम			5,000.00	5,000.00			1,978.00	1,978.00
6	शोध क्रियाकलाप				-				-
7	परीक्षा/प्रवेश परीक्षा			2,738,910.00	2,738,910.00			3,926,868.00	3,926,868.00
8	विद्यार्थी कल्याण व्यय				-				-
9	विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति / स्टाइपेन्ड				-				-
10	पत्रिकायें प्रकाशन			30,600.00	30,600.00	12,571,584.00			12,571,584.00
11	शैक्षणिक दौरा			18,318.00	18,318.00			20,541.00	20,541.00
12	पुस्तकालय व्यय			77,899.00	77,899.00			32,282.00	32,282.00
13	शैक्षिक क्रियाकलाप (विभिन्न विभाग)			1,035,302.00	1,035,302.00			959,858.00	959,858.00
14	खेल-कूद क्रियाकलाप	-		294,957.00	294,957.00	1,796,000.00		3,434,327.00	5,230,327.00
15	यूजीसी शोध फेलोशिप	18,319,390.00			18,319,390.00	10,601,184.00			10,601,184.00
	कुल योग	24,143,652.00	771,460.00	14,543,868.00	39,458,980.00	30,801,627.00		19,241,091.00	50,042,718.00

अनुसूची 12- प्रशासनिक व्यय

धनराशि रूपयें में

विवरण	वर्तमान वर्ष				पूर्व वर्ष			
	12वीं योजना	योजना	गैर योजना	योग	12वीं योजना	योजना	गैर योजना	योग
A								
	अवसंरचना							
I)	कुलानुशासक कार्यालय		121,623.00	121,623.00			112,924.00	112,924.00
II)	चिद्युत व्यय	2,750,644.00	18,764,218.00	18,764,218.00	2,750,644.00		9,141,083.00	11,891,727.00
III)	प्लेसमेंट व्यय		2,433,230.00	2,433,230.00			605,276.00	605,276.00
IV)	सुरक्षा व्यय	2,288,301.00	12,941,756.00	12,941,756.00	2,288,301.00		7,751,282.00	10,039,583.00
V)	वाहन चालन व्यय							-
VI)	बीमा							-
VII)	सूचना एवं मार्गनिर्देश ब्यूरो विविध		8,270.00	8,270.00			14,849.00	14,849.00
B	संचार							
I)	डाक एवं तार व्यय		161,441.00	161,441.00			109,173.00	109,173.00
II)	टेलीफोन एवं फैक्स		1,012,296.00	1,012,296.00			743,946.00	743,946.00
III)	इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रभार		80,869.00	80,869.00			69,652.00	69,652.00
C	कर्मचारी प्रशिक्षण एवं कार्यशाला		32,523.00	32,523.00			500.00	500.00
D	डीएसडब्लू कार्यालय		2,899.00	2,899.00			5,547.00	5,547.00
E	विज्ञापन एवं प्रचार		4,129,670.00	4,129,670.00	12,465,690.00		2,859,305.00	15,324,995.00
F	विधिक व्यय		386,580.00	386,580.00			581,850.00	581,850.00
G	अन्य			-				-
I)	प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी (उपभोग हेतु)		1,341,588.00	1,341,588.00	719,645.00		2,959,257.00	3,678,902.00
II)	समाचार पत्र एवं पत्रिकायें		21,778.00	21,778.00			22,487.00	22,487.00
III)	यात्रा एवं वाहन व्यय	771,371.00	1,349,836.00	2,121,207.00	401,010.00	40,000.00	1,068,944.00	1,509,954.00
IV)	गुप्त एवं गोपनीय कार्य		194,314.00	194,314.00			20,149.00	20,149.00
V)	परामर्श शुल्क		707,523.00	707,523.00				-
VI)	बैंक प्रभार							-
VII)	बैटक प्रभार		2,265,903.00	2,265,903.00			4,664,314.00	4,664,314.00
VIII)	सदस्यता प्रभार		302,733.00	302,733.00	100.00		834,338.70	834,438.70

IX)	एनएसडीएल शुल्क		30,007.00	30,007.00			18,610.00	18,610.00
X)	डिसर्टेशन कार्य		112,500.00	112,500.00			62,573.00	62,573.00
XI)	स्थानीय वाहन व्यय			-				-
XII)	यूएसआईसी		183,620.00	183,620.00			123,812.00	123,812.00
XIII)	लिवरीज			-				-
XIV)	कार्यालय आकस्मिक व्यय		1,058,622.00	1,058,622.00			827,267.00	827,267.00
XV)	बीआईपी अतिथियों का दौरा व्यय		147,769.00	147,769.00			108,900.00	108,900.00
XVI)	अन्य विविध, प्रशासनिक व्यय	83,767.00	4,185,656.00	4,269,423.00	1,071,863.00		4,568,165.00	5,640,028.00
XVII)	चुकता वैट						6,722.00	6,722.00
XVIII)	आय कर		61,205.00	61,205.00				-
सम्पूर्ण योग		855,138.00	52,038,429.00	52,893,567.00	19,697,253.00	40,000.00	37,280,925.70	57,018,178.70

अनुसूची 12ए- परिवहन व्यय

धनराशि रूपये में

विवरण		वर्तमान वर्ष				पूर्व वर्ष			
		बारहवीं योजना	योजना		बारहवीं योजना	योजना			
								बारहवीं योजना	योजना
A									
	1			1,819,815.00	1,819,815.00				
	2			415,599.00	415,599.00			1,541,818.00	1,541,818.00
	3			95,186.00	95,186.00			57,489.00	57,489.00
				2,330,600.00	2,330,600.00			1,599,307.00	1,599,307.00
				-	-			-	-

अनुसूची 13- मरम्मत एवं अनुरक्षण

धनराशि रूपये में

विवरण	वर्तमान वर्ष				पूर्व वर्ष			
	12वीं योजना	योजना	गैर योजना	योग	12वीं योजना	योजना	गैर योजना	योग
1) गृह सज्जा	9,917,275.00		27,067,665.00	36,984,940.00	2,103,236.00		15,567,658.00	17,670,894.00
2) बागवानी एवं पशु गृह			1,231,728.00	1,231,728.00			843,196.00	843,196.00
3) भवन अनुरक्षण	-		3,747,597.00	3,747,597.00	828,623.00		3,277,891.00	4,106,514.00
4) विभाग/परिसर अनुरक्षण	-		10,512,629.00	10,512,629.00	130,279,092.00		3,558,019.00	133,837,111.00
5) कार्यालय उपकरण अनुरक्षण			621,891.00	621,891.00			631,965.00	631,965.00
6) कम्प्यूटर अनुरक्षण			639,410.00	639,410.00			588,152.00	588,152.00
7) फर्नीचर एवं फिक्सर अनुरक्षण				-				-
8) प्रयोगशाला उपकरण अनुरक्षण				-				-
9) अतिथि गृह प्रभार	447,200.00		466,801.00	914,001.00	2,756,660.00		567,995.00	3,324,655.00
10) विविध (महिला छात्रावास)			162,610.00	162,610.00		8,028,144.00	75,676.00	8,103,820.00
11) विविध (पुरुष छात्रावास)	-		236,901.00	236,901.00	396,636.00		256,007.00	652,643.00
12) सफाई	-		7,832,585.00	7,832,585.00	179,824.00		2,773,602.00	2,953,426.00
13) भवन निर्माण आदि				-				
14) केन्द्रीय सुविधाएं				-				
15) महिला छात्रावास पर व्यय	10,944.00			10,944.00				
16) शिक्षा में सुधार	90,827.00			90,827.00				
17) मरम्मत भत्ता				-				
13) अन्य कटौती	740.00			740.00				
कुल योग	10,466,986.00	-	52,519,817.00	62,986,803.00	136,544,071.00	8,028,144.00	28,140,161.00	172,712,376.00

अनुसूची 13ए-वित्तीय लागत

विवरण			वर्तमान वर्ष				पूर्व वर्ष			
			12वीं योजना	योजना	गैर योजना	योग	12वीं योजना	योजना	गैर योजना	योग
A										
	1	बैंक चार्ज	6,048.00		9,807.00	15,855.00	3,245.00	439.00	4,569.00	8,253.00
			6,048.00	—	9,807.00	15,855.00	3,245.00	439.00	4,569.00	8,253.00

अनुसूची 14-पूर्व अवधि व्यय

धनराशि रूपये में

विवरण	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष			
एनपीएस	9,814,310.19				
भवन मरम्मत योजना	11,280.00				
बैंक चार्ज डॉ. सुदीप्त शाह	17.00				
योग	9,825,607.19	-			

बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ
31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष हेतु प्राप्तियां एवं भुगतान

प्राप्तियाँ	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष	भुगतान	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
अथ शेष			I. व्यय		
अ) रोकड़ नकद	250,271.00	51,191.00	a) स्थापना	107,855,479.00	88,733,918.70
ब) बैंक में जमा शेष चालू खाता में			b) शैक्षणिक व्यय		
i. चालू खाता में			c) प्रशासनिक	209,603,294.00	88,825,031.00
ii. जमा खाता में			d) परिवहन व्यय		-
iii. बचत खाता में	380,879,328.04	781,789,653.66	e) मरम्मत एवं अनुरक्षण		-
			f) पूर्व अवधि व्यय		
II. प्राप्त अनुदान			II. चिन्हित/वृत्ति निधि के सापेक्ष भुगतान (ईएमएफ)	76,944,420.00	
a) भारत सरकार	530,213,600.00	404,005,069.00			
b) राज्य सरकार					
c) अन्य स्रोतों से					
(पूँजी एवं राजस्व व्यय अनुदान/अलग से दर्शाएँ यदि हो)					
III. शैक्षणिक प्राप्तियाँ	72,070,624.00	28,785,546.77	III. प्रायोजित परियोजनाओं/ योजनाओं के सापेक्ष व्यय		-
IV. चिन्हित/वृत्ति निधि के सापेक्ष प्राप्तियाँ	54,747,440.00	-	IV. प्रायोजित फ़ैलोशिप एवं छात्रवृत्ति के सापेक्ष व्यय		
V. प्रायोजित परियोजनाओं के सापेक्ष प्राप्तियाँ			V. निवेश एवं जमा		
			a) चिन्हित/वृत्ति निधि के बाहर		
			b) अपनी निधि से बाहर (अन्य निवेश)		
VI. प्रायोजित फ़ैलोशिप एवं छात्रवृत्ति के सापेक्ष प्राप्तियाँ			VI. अनुसूचित बैंक में सावधि जमा		
VII. से निवेश पर अर्जित आय			VII. Expenditure of Fixed Assets and capital Works -in Progress		
a) चिन्हित/वृत्ति निधि			a) स्थाई परिसम्पत्ति	270,759,058.00	308,088,166.91
b) अन्य निवेश			b) अप्रत्यक्ष सम्पत्ति	1,190,938.00	
			c) पूँजीगत कार्य प्रक्रियाधीन		

VIII. को अर्जित ब्याज			VIII. सांविधिक पावती सहित अन्य प्राप्तियाँ		
a) बैंक जमा					
b) ऋण एवं अग्रिम					
c) बचत खाता	23,879,450.00	32,526,400.00			
IX. निवेश नकदी करण			IX. अनुदान की वापसी		
X. अनुसूचित बैंक में जमा सावधि जमा का नकदीकरण			X. जमा एवं अग्रिम		10,600,262.00
XI. अन्य आय (पूर्व अवधि के आय सहित)			XI. अन्य भुगतान	112,894,381.06	410,618,235.66
XII. जमा एवं अग्रिम			XII. इति शेष		
			a) उपलब्ध नकद	268,673.00	250,271.00
			b) बैंक में शेष		
			i. चालू खाता में		
			ii. बचत खाता में	346,960,628.97	380,879,328.47
			iii. जमा खाता में	10,000,000.00	
XIII. सांविधिक पावती सहित विविध प्राप्तियाँ	74,373,761.99	35,939,841.31			
XIV. अन्य प्राप्तियाँ	62,397.00	4,897,512.00			
योग	1,136,476,872.03	1,287,995,213.74	योग	1,136,476,872.03	1,287,995,213.74

31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लेखा का अनुसूची निर्माण भाग

बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ
भविष्य निधि लेखा 31 मार्च, 2015 का तुलनपत्र

Liability	वर्तमान वर्ष	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष	पूर्व वर्ष	परिसम्पत्तियां	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
समान्य भविष्य निधि					निवेश/एफडीआर	51,127,656.00	41,127,656.00
अथ शेष	34,066,104.00		32,830,011.00		31/03/15 को प्रोद्भूत ब्याज	4,191,062.98	
घटाये: मार्च हेतु.....					मार्च हेतु देय,...		
	34,066,104.00		32,830,011.00		समान्य भविष्य निधि		
जोड़े: अंशदान	8,444,653.00		6,967,393.00		अंशदायी भविष्य निधि		
घटाये : अग्रिम/निकासी	(2,897,301.00)	39,613,456.00	(5,731,300.00)	34,066,104.00	UC अंशदायी भविष्य निधि को देय		
अंशदायी भविष्य निधि					NPS-II		
अथ शेष	(1,322,480.00)		(2,064,980.00)				
घटाये : मार्च हेतु.....					निवेश पर अर्जित ब्याज		
जोड़े : अंशदान	999,000.00		742,500.00		आयकर विभाग में लम्बित वापसी		
जोड़े : जमा ब्याज							
जोड़े : मार्च हेतु.....							
घटाये : अग्रिम/निकासी		(323,480.00)		(1,322,480.00)			
विश्वविद्यालय अंशदान							
अथ शेष	333,180.00		333,180.00				
घटाये : मार्च का अंशदान							
जोड़े : वर्ष का अंशदान	-				नकद रोकड़		
जोड़े : जमा ब्याज					केनरा बैंक खाता नं. 190	818,255.00	5,688,771.00
जोड़े : मार्च हेतु.....							
घटाये : अग्रिम/निकासी		333,180.00		333,180.00			
NPS Tier-II Account							
अथ शेष							
घटाये : मार्च का अंशदान							
जोड़े : वर्ष का अंशदान							
जोड़े : मार्च हेतु.....							
जोड़े : जमा ब्याज							

घटाये : अग्रिम/निकासी							
बयान राशि/जमानत जमा	4,671,335.00	-		4,671,335.00			
घटाये : पुनर्भुगतान	1,616,450.00	3,054,885.00					
आरक्षित ब्याज							
अथ शेष	9,068,288.00		3,305,396.00				
जोडे: व्यय के सापेक्ष अधिक आय	4,390,644.98	13,458,932.98	5,762,892.00	9,068,288.00			
योग		56,136,973.98		46,816,427.00		56,136,973.98	46,816,427.00

बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ
नई पेंशन योजना लेखा
31-03-2015 को समाप्त वर्ष का आय एवं व्यय लेखा

व्यय	पूर्व वर्ष	वर्तमान वर्ष	आय	पूर्व वर्ष	वर्तमान वर्ष
ब्याज जमा			अर्जित ब्याज	201,773.00	5,763,735.00
समान्य भविष्य निधि लेखा			सवधि पर अर्जित ब्याज	4,191,062.98	
अंशदायी भविष्य निधि लेखा					
विश्वविद्यालय अंशदान					
एनपीएस टीयर II खाता					
बैंक प्रभार	2,191.00	843.00	विविध आय		
व्यय के सापेक्ष अधिक आय	4,390,644.98	5,762,892.00	आय के सापेक्ष अतिरिक्त आय		-
योग	4,392,835.98	5,763,735.00	योग	4,392,835.98	5,763,735.00

बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ
भविष्य निधि लेखा
वित्तीय वर्ष 2015 हेतु प्राप्तियां एवं भुगतान लेखा

प्राप्तियां	वर्तमान वर्ष		पूर्व वर्ष		भुगतान	वर्तमान वर्ष		पूर्व वर्ष	
अथ शेष					सामान्य भविष्य निधि अग्रिम	570,000.00		542,700.00	
केनरा बैंक खाता नं. 0190	5,688,771.00		2,376,679.00		सामान्य भविष्य निधि निकासी	2,811,945.00		5,696,334.00	
एफडीआर	24,500,000.00	30,188,771.00	24,500,000.00	26,876,679.00	अंशदायी भविष्य निधि अग्रिम / निकासी				
					विश्वविद्यालय अंशदान निकासी		3,381,945.00		6,239,034.00
सामान्य भविष्य निधि अंशदान	8,444,653.00		6,967,393.00						
अंशदायी भविष्य निधि अंशदान	999,000.00		742,500.00		वर्ष के दौरान निवेश (एफडीआर)		10,000,000.00		9,000,262.00
विश्वविद्यालय अंशदान- अंशदायी भविष्य निधि		9,443,653.00		7,709,893.00					
					बैंक प्रभार		2,191.00		843.00
बयाना राशि / सुरक्षा जमा				4,570,869.00			1,616,450.00		
सा.भ.नि. / अंशदायी भ.नि. अग्रिम वसूली		484,644.00		507,734.00					
प्राप्त ब्याज-बचत खाता	201,773.00		163,473.00		इति शेष:- केनरा बैंक खाता नं. 0190	818,255.00		5,688,771.00	
प्राप्त ब्याज- सावधि जमा खाता		201,773.00	5,600,262.00	5,763,735.00	सावधि जमा रसीद	24,500,000.00	25,318,255.00	24,500,000.00	30,188,771.00
विविध आय									
निवेश नकदीकरण									
योग		40,318,841.00		45,428,910.00	योग		40,318,841.00		45,428,910.00

बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ
नई पेंशन योजना लेखा
तुलनपत्र-31 मार्च, 2015

देनदारियां	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष	परिसम्पत्तियां	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
एनपीएस टीयर । लेखा			एनपीएस टीयर । लेखा		
अथ शेष	10,724,127.00	6,749,060.19	अंशदान एवं योगदान		
			3/15 के लिए		
जोड़े: अंशदान + विश्वविद्यालय अंशदान	-	3,647,317.00	निवेश/सावधि जमा रसीद	500,000.00	500,000.00
घटाएं : अंशदान भुगतान	6,663,018.00		बैंक में जमाशेष	3,993,559.00	10,224,127.19
	4,061,109.00				
व्यय के सापेक्ष अधिक आय	432,450.00	327,750.00			
योग	4,493,559.00	10,724,127.19	योग	4,493,559.00	10,724,127.19

बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ
नई पेंशन योजना लेखा
31-03-2015 को समाप्त वर्ष का आय एवं व्यय लेखा

व्यय	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष	आय	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
अंशदाताओं के खाते में जमा किया गया ब्याज			निवेश से अर्जित व्यय	432,450.00	328,103.00
बैंक प्रभार	-	353.00			
व्यय के सापेक्ष अधिक व्यय	432,450.00	327,750.00	जोड़े: प्रोद्भूत ब्याज 31/03/.....		
			घटायें : प्रोद्भूत ब्याज 31/03/.....		
योग	432,450.00	328,103.00	योग	432,450.00	328,103.00

बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ
नई पेंशन योजना लेखा
वित्तीय वर्ष 2014-15 का पावती एवं भुगतान लेखा

पावती	वर्तमान वर्ष		पूर्व वर्ष		भुगतान	वर्तमान वर्ष		पूर्व वर्ष	
अथ शेष	10,224,127.00		6,249,060.00						
ओपी सावधि जमा रसीद	500,000.00	10,724,127.00	500,000.00	6,749,060.00	निवेश		6,663,018.00		
नई पेंशन योजना लेखा					एनपीएस विश्वविद्यालय अंशदान	3,331,504.00			
स्वयं अंशदान	-		1,823,659.00		एनपीएस कर्मचारी अंशदान	3,331,514.00			
विश्वविद्यालय अंशदान	-	-	1,823,658.00	3,647,317.00					
प्राप्त ब्याज					बैंक प्रभार		-		353.00
बचत बैंक खाता एवं सावधि जमा पर ब्याज	432,450.00	432,450.00		328,103.00	इति शेष	3,993,559.00		10,224,127.19	
					सावधि जमा रसीद	500,000.00	4,493,559.00	500,000.00	10,724,127.19
योग		11,156,577.00		10,724,480.00	योग		11,156,577.00		10,724,480.19

बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ
स्थापना
तुलनपत्र 31 / 03 / 2015

देनदारियां	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष	परिसंपत्तियां	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
अथ शेष			गैर योजना खातों का स्थानान्तरण		6,721,584.06
जोड़े: अधिशेष		6,721,584.06	बैंक में अवशेष		-
योग		6,721,584.06	योग	-	6,721,584.06

बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ
स्थापना
31-03-2015 को समाप्त वर्ष का आय एवं व्यय लेखा

व्यय	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष	आय	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
			निवेश पर अर्जित ब्याज		233,781.00
व्यापार कर		324,391.00			
			विविध आय		6,812,194.06
व्यय के सापेक्ष अधिक आय		6,721,584.06			
योग	-	7,045,975.06	योग	-	7,045,975.06

बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ
स्थापना
वित्तीय वर्ष 2015 हेतु प्राप्तियां एवं भुगतान लेखा

प्राप्तियां	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष	भुगतान	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
अथ शेष			व्यापार कर	324,391.00	
केनरा बैंक खाता संख्या- 5047			12 वीं योजना खोते को स्थानांतरित	6,721,584.06	
प्राप्त ब्याज:					
प्राप्त ब्याज- ब्याज बचत खाता	233,781.00				
प्राप्त ब्याज- सावधि जमा खाता			इति शेष		
			केनरा बैंक स्थापना 5047		
विविध आय	6,812,194.06				
योग	7,045,975.06		योग	7,045,975.06	

बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ
शिक्षा
तुलन पत्र-31 मार्च, 2015

देनदारियां	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष	परिसंपत्तियां	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
निधि			एसबीबीटी भवन का निर्माण	40,000,000.00	40,000,000.00
अथ शेष	50,215,638.00		पुस्तक एवं जर्नल	1,826,906.00	
		-	फर्नीचर	3,131,360.00	
			कम्प्यूटर	1,454,250.00	
जोड़े: अधिशेष	124,955.00	50,215,638.00	स्टाफ को अग्रिम	24,408.00	24,408.00
	50,340,593.00		निवेश/सावधि जमा	1,600,000.00	1,600,000.00
			बैंक में अवशेष	2,303,669.00	8,591,230.00
योग	50,340,593.00	50,215,638.00	योग	50,340,593.00	40,024,408.00

बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ

शिक्षा

31 / 03 / 2015 को समाप्त वर्ष का आय एवं व्यय लेखा

व्यय	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष	आय	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
		-	बचत खाता पर अर्जित व्याज	211,253.00	583,621.00
बैंक प्रभार	337.00	17.00	प्रशमिता मोहंती शिक्षा	25,045.00	
आकस्मिकता	70,975.00	114,606.00	सहायक - अनुदान		50,000,000.00
उपकरण		77,750.00			
अतिथि संकाय		107,000.00			
बैठकों पर व्यय	40,031.00	68,610.00			
व्यय के सापेक्ष अधिक आय	124,955.00	50,215,638.00			
योग	236,298.00	50,583,621.00	योग	236,298.00	50,583,621.00

बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ
शिक्षा
वित्तीय वर्ष 2015 हेतु प्राप्तियां एवं भुगतान लेखा

प्राप्तियां	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष	भुगतान	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
अथ शेष			सावधि जमा रसीद		1,600,000.00
केनरा बैंक खता संख्या नं. 5155	8,591,230.00		स्टाफ को अग्रिम		24,408.00
			एसबीबीटी भवन का निर्माण		40,000,000.00
			आकस्मिता	70,975.00	114,606.00
प्राप्त अनुदान:			उपकरण		77,750.00
योजना अनुदान खाता			अतिथि संकाय		107,000.00
सहायक अनुदान		50,000,000.00	बैंठकों पर व्यय	40,031.00	68,610.00
			पुस्तक एवं जर्नल	1,826,906.00	
प्राप्त ब्याज		-	फर्नीचर	3,131,360.00	
प्राप्त ब्याज-बचत खाता	211,253.00	583,621.00	कम्प्यूटर	1,454,250.00	
			बैंक प्रभार	337.00	17.00
प्रशमिता मोहंती शिक्षा	25,045.00		इति शेष		
			केनरा बैंक खता संख्या नं. 5155	2,303,669.00	8,591,230.00
योग	8,827,528.00	50,583,621.00	योग	8,827,528.00	50,583,621.00

बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ
नवीन पाठ्यक्रम
तुलन पत्र 31-03-2015 तक

देनदारियां	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष	परिसंपत्तियां	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
निधि			स्टाफ को अग्रिम	224,983.00	119,427.00
अथ शेष	13,648,194.00		एसबीबीटी भवन का विस्तार	10,000,000.00	10,000,000.00
अधिशेष	2,780,956.00	13,648,194.00	बैंक में अवशेष	6,204,167.00	3,528,767.00
	16,429,150.00				
	-				
		-			
योग	16,429,150.00	13,648,194.00	योग	16,429,150.00	13,648,194.00

बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ
नवीन पाठ्यक्रम
31 / 03 / 2015 को समाप्त वर्ष का आय एवं व्यय लेखा

व्यय	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष	आय	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
कर्मचारी को अग्रिम	-	-	निवेश पर अर्जित ब्याज	518,367.00	37,823.00
केमिकल-फूड माइक्रो एवं टॉक्सीकोलॉजी	3,807,217.00	410,087.00			
आकस्मिकता	642,502.00	219,195.00	शुल्क से आय	46,163,359.00	14,694,346.00
उपकरण	2,803,902.00	186,668.00			
फर्नीचर	3,098,408.00	113,400.00			
अतिथि संकाय	8,291,472.00				
अतिथि संकाय सीएमसीए	282,000.00	36,000.00			
अतिथि संकाय, कम्युनिटी कॉलेज		9,000.00			
अतिथि संकाय, माइक्रो एवं टॉक्सीकोलॉजी		57,511.00			
अतिथि संकाय, एम-टेक	439,000.00	49,403.00			
केमिकल का क्रय		2,018.00			
विज्ञापन	984,755.00				
पुस्तक एवं जर्नल	808,315.00				
गृह सज्जा को भुगतान	3,347,823.00				
बैठक व्यय	14,169.00				
कम्प्यूटर खरीद	6,441,015.00				
पारिश्रमिक	55,100.00				
सीईटी प्रशिक्षण कार्यक्रम	382,500.00				
गैर योजना खाता को स्थानांतरण	12,500,000.00				
बैंक प्रभार	2,592.00	693.00			
व्यय के सापेक्ष अधिक आय	2,780,956.00	13,648,194.00			
योग	46,681,726.00	14,732,169.00	योग	46,681,726.00	14,732,169.00

बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ
नवीन पाठ्यक्रम
वित्तीय वर्ष 2015 हेतु प्राप्तियां एवं भुगतान लेखा

प्राप्तियां	वर्तमान वर्ष		पूर्व वर्ष		भुगतान	वर्तमान वर्ष		पूर्व वर्ष	
अथ शेष					स्टाफ को अग्रिम	105,556.00		119,427.00	
केनरा बैंक खाता संख्या-5295	3,528,767.00	3,528,767.00			केमिकल-फूड माइक्रो एवं टॉक्सीकोलॉजी	3,807,217.00		410,087.00	
					आकस्मिकता	642,502.00		219,195.00	
					उपकरण	2,803,902.00		186,668.00	
प्राप्त अनुदान:					एसबीबीटी भवन का विस्तार			10,000,000.00	
योजना अनुदान खाता					फर्नीचर	3,098,408.00		113,400.00	
सहायक अनुदान					अतिथि संकाय	8,291,472.00			
					अतिथि संकाय सीएमसीए	282,000.00		36,000.00	
प्राप्त ब्याज:					अतिथि संकाय, कम्युनिटी कॉलेज			9,000.00	
प्राप्त ब्याज- बचत खाता	518,367.00		37,823.00		अतिथि संकाय, माइक्रो एवं टॉक्सीकोलॉजी			57,511.00	
प्राप्त ब्याज- सावधि जमा खाता		518,367.00		37,823.00	अतिथि संकाय, एम-टेक	439,000.00		49,403.00	
					केमिकल का क्रय			2,018.00	
शुल्क से आय	46,163,359.00	46,163,359.00	14,694,346.00	14,694,346.00	विज्ञापन	984,755.00			
					पुस्तक एवं जर्नल	808,315.00			
					गृह सज्जा को भुगतान	3,347,823.00			
					बैठक व्यय	14,169.00			
					कम्प्यूटर खरीद	6,441,015.00			

				पारिश्रमिक	55,100.00			
				सीईटी प्रशिक्षण कार्यक्रम	382,500.00			
				गैर योजना खाता को स्थानांतरण	12,500,000.00			
				बैंक प्रभार	2,592.00	44,006,326.00	693.00	11,203,402.00
				इति शेषः				
				केनरा बैंक खता संख्या-5295		6,204,167.00	3,528,767.00	
							-	3,528,767.00
योग		50,210,493.00		योग		50,210,493.00		14,732,169.00

लेखा पर टिप्पणी

दिनांक 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लेखा खातों के भाग बने प्राप्त एवं भुगतान लेखा के साथ-साथ तुलन-पत्र और आय एवं व्यय खातों पर टिप्पणी :-

1. तुलना करने के उद्देश्य से पिछले वर्ष के आंकड़ों का वर्तमान वर्ष के साथ पुनः समूहीकृत किया गया है।
2. चिन्हित निधि से खरीदी गई स्थाई परिसंपत्तियाँ, जिनके लिए मूल्यहास प्रभारित नहीं किया गया है, इसके अलावा सभी स्थाई परिसंपत्तियों की लागत की लागत उनका मूल्यहास करके ही दर्शायी गयी है।
3. स्थाई परिसंपत्तियों का मूल्यहास आय कर अधिनियम 1961 के अनुसार निर्धारित दरों पर डब्ल्यू.डी.वी. पद्धति के अनुसार किया गया है। यदि 30-09-2015 तक परिसंपत्तियों का क्रय किया गया है तो पूरे वर्ष हेतु मूल्य हास लगाया गया है और यदि 01-01-2015 को या उसके बाद क्रय किया गया है तो आधे वर्ष हेतु मूल्य हास लगाया गया है।
4. पिछले वर्ष के वार्षिक लेखा के संबंध में संशोधन कैग के अवलोकन/सुझावों के आधार पर किया गया है।
5. वित्तीय वर्ष 2014-15 का वार्षिक लेखा बनाते समय लेखा को लेखाकार कार्यालय, इलाहाबाद के पूर्व के वर्षों के वार्षिक लेखों के संबंध में लेखा परीक्षा प्रमाण पत्रों के आधार पर किये गये प्रेक्षण/सुझाव/समाशोधन का सम्यक् ध्यान रखा गया है तथा यथावश्यक आंकड़ों को पुनः समूहबद्ध किया गया है।

योजन एवं गैर योजना के तहत 31.03.2015 को कर्मचारियों की संख्या एवं छात्र पंजीकरण (अपिव विस्तार योजना के तहत स्वीकृत सहित)

(i)	शैक्षणिक	आचार्य	उपाचार्य	वरिष्ठ वेतनमान/सेलेक्शन ग्रेड सहायक आचार्य	सहायक आचार्य	अन्य	योग
	(कर्मचारियों की संख्या)	9+4*=13	29+1**+1#=31	25S	33+5#=38	101+6#=107	(कर्मचारियों की संख्या)
(ii)	गैर शैक्षणिक	श्रेणी ए	श्रेणी बी	श्रेणी सी C	श्रेणी डी (जो श्रेणी सी में हैं)		योग
	(कर्मचारियों की संख्या)	12	22+2#=24		57+4#=61		91+6#+97
(iii)	कुल पंजीकरण :	स्नातक	परास्नातक	5 वर्षीय एकीकृत पाठ्यक्रम	एम फिल	पी एचडी	सर्टिफिकेट/डिप्लोमा
	2818	411	1828	21	94	451	13
(iv)	शिक्षक छात्र अनुपात						1:26.33
(v)	शैक्षिक गैर शैक्षिक अनुपात (छात्रावास कर्मियों को छोड़कर)						1:089

*4 सीएएस के तहत पदोन्नत सहायक आचार्य

**1 सीएएस के तहत उपाचार्य पद पर पदोन्नत सहायक आचार्य

♠सीएएस के तहत पदोन्नत

#सीएसएसईआईपी एवं आरसीए संकाय सदस्य सम्मिलित

बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ का 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लेखा पर भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

हमने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कर्त्तव्य, अधिकार एवं सेवा की शर्तों) अधिनियम, 1971 के नियम 19(2) के साथ पठित बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय अधिनियम, 1994 के नियम 30 के अन्तर्गत बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ का दिनांक 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के संलग्न तुलन-पत्र और आय एवं व्यय लेखा तथा प्राप्त एवं भुगतान लेखा की लेखा-परीक्षा किया है। इन वित्तीय विवरणों का उत्तरदायित्व विश्वविद्यालय प्रबंधतंत्र का है। हमारी जिम्मेदारी अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय व्यक्त करने तक ही है।

2. इस पृथक लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन में वर्गीकरण, इष्टतम लेखाकरण पद्धतियों के साथ अनुरूपता, लेखाकरण मानकों और प्रकटीकरण शर्तों इत्यादि के संबंध में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी.ए.जी.) की टिप्पणियों को रखा गया है। कानून, नियम एवं विनियमों (प्रोपाइटी एण्ड रेगुलरिटी) एवं दक्षता-सह-निष्पादन पहलुओं इत्यादि, यदि कोई है, के अनुपालन के संबंध में वित्तीय लेन-देनों पर लेखा-परीक्षा प्रेक्षणों को अलग से निरीक्षण प्रतिवेदनों/नियंत्रक एवं महा-लेखा परीक्षक प्रतिवेदनों के माध्यम से प्रतिवेदित किया गया है।
3. हमने अपनी लेखा-परीक्षा, भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार किया है। इन मानकों में यह अपेक्षित है कि हमें अपनी लेखा परीक्षा की योजना इस प्रकार बनानी तथा निष्पादित करनी चाहिए जिससे इस बात का समुचित आश्वासन मिल जाये कि वित्तीय विवरणों में कोई बड़ा असत्य विवरण प्रस्तुत न हो सके। किसी लेखा परीक्षा में परीक्षण के आधार पर जांच करना, धनराशियों के समर्थन में साक्ष्यों तथा वित्तीय विवरणों का प्रकटीकरण शामिल रहता है। इसके साथ ही, लेखा परीक्षा में प्रयोग किए गए लेखाकरण सिद्धांतों का आंकलन करने और प्रबंधतंत्र द्वारा बनाये गये महत्वपूर्ण प्राक्कलनों के साथ ही साथ वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना भी शामिल रहता है। हमें विश्वास है कि हमने अपनी लेखा परीक्षा इस प्रकार की है, जो हमें अपना विचार व्यक्त करने का समुचित आधार प्रदान करती है।
4. अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर हम निम्नलिखित प्रतिवेदन करते हैं।

हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार, लेखा परीक्षा करने के उद्देश्य हेतु आवश्यक सभी सूचना एवं स्पष्टीकरण सिवाय उनके जिनका उल्लेख इस रिपोर्ट में है, हमने प्राप्त कर लिये हैं।

इस रिपोर्ट का तुलन-पत्र, आय एवं व्यय खाता और प्राप्तियों एवं भुगतान लेखों तथा तुलन पत्र की अनुसूची को मानव संसाधन विकास मंत्रालय के आदेश सं. 29-4/2012-एफ.डी, दिनांक 17-04-2015 के अनुसार अनुमोदित खातों के सामान्य प्रारूप में नहीं तैयार किया गया है।

जहाँ तक लेखा पुस्तकों की हमारी जाँच से प्रतीत होता है, हमारे विचार से बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय अधिनियम, 1994 के नियम 30 के अंतर्गत यथा वांछित, विश्वविद्यालय द्वारा लेखा बही और अन्य संबंधित अभिलेखों को समुचित तरीके से बनाया गया है।

इसके अलावा हम प्रतिवेदित करते हैं कि :

(अ) तुलन पत्र

(अ.1) स्थाई परिसम्पत्तियां (अनुसूची-4) रु. 137.02 करोड़

- (अ. 1.1) विश्वविद्यालय ने 11वीं योजना के तहत विश्वविद्यालय के केन्द्रीय पुस्तकालय में सेन्ट्रल एयर कन्डीशनिंग सिस्टम लगाने हेतु रु. 4.22 करोड़ (मार्च 2014) में व्यय किये, लेकिन इसे वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 के दौरान "पुस्तकालय उपस्कर" की मद के तहत स्थायी परिसम्पत्ति के तुलनपत्र में पूंजीकृत नहीं किया गया। इसके परिणामतः तुलनपत्र में स्थायी परिसम्पत्तियों तथा पूंजी निधि में रु. 3.22 करोड़ कम का आंकलन किया गया। परिणामस्वरूप प्रभारित मूल्य ह्रास में रु. 0.90 करोड़ कम का एवं अधिशेष आय में उतनी ही राशि का अधिक का आंकलन किया गया।
- (अ. 1.2) यद्यपि, विश्वविद्यालय ने रु. 131.51 लाख की स्थायी परिसम्पत्तियां अधिप्राप्त की (उपस्कर रु. 28.04 लाख, फर्नीचर रु. 30.98 लाख, पुस्तकें एवं जर्नल रु. 8.08 लाख एवं कम्प्यूटर रु. 64.41 लाख) और इसे वर्ष 2014-15 के दौरान आय एवं व्यय लेखा-नवीन पाठ्यक्रम में दर्शाया है। इसे विश्वविद्यालय के मुख्य लेखा के तुलन-पत्र में 'स्थायी परिसम्पत्ति' और पूंजीकृत नहीं किया गया। परिणामतः स्थायी परिसम्पत्ति और पूंजी निधि में रु. 88.16 लाख कम का आंकलन किया गया। इसके परिणामस्वरूप, प्रभारित मूल्य ह्रास रु. 43.35 लाख कम का एवं अधिशेष आय में इसी राशि का अधिक का आंकलन किया गया।
- (अ. 1.3) विश्वविद्यालय में ग्यारहवीं योजना के तहत रु. 103.02 लाख की कीमत का फर्नीचर (मार्च 2014) में विधि अध्ययन विद्यापीठ के भवन हेतु समाज कल्याण निगम से क्रय किया गया और इसी माह में इसे निगम द्वारा विश्वविद्यालय को हस्तगत कर दिया गया परन्तु विश्वविद्यालय ने वर्ष 2013-14 या 2014-15 के तुलन पत्र की स्थायी परिसम्पत्ति के फर्नीचर मद में इसे पूंजीकृत नहीं किया। परिणामस्वरूप तुलन पत्र में स्थायी परिसम्पत्तियों तथा पूंजी निधि का रु. 92.72 लाख कम का आंकलन किया गया। इसके परिणामस्वरूप प्रभारित मूल्य ह्रास रु. 10.30 लाख कम का एवं अधिशेष आय में इसी राशि का अधिक का आंकलन किया गया।
- (अ. 1.4) यद्यपि, विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग ने वर्ष 2014-15 के दौरान रु. 64.12 लाख की स्थायी परिसम्पत्तियां (पुस्तकें एवं जर्नल रु. 18.27 लाख, फर्नीचर रु. 31.31 लाख एवं कम्प्यूटर्स रु. 14.54 लाख) क्रय की। उन्होंने इसे विश्वविद्यालय के मुख्य लेखा के स्थायी परिसम्पत्तियों के मद के तहत पूंजीकृत नहीं किया। इसके परिणामतः तुलनपत्र में स्थायी परिसम्पत्तियों एवं पूंजी निधि का रु. 41.31 लाख कम का आंकलन किया गया। परिणामस्वरूप, प्रभारित मूल्यह्रास रु. 22.81 लाख कम का एवं अधिशेष आय में इसी राशि का अधिक का आंकलन किया गया।

- (अ. 1.5) विश्वविद्यालय ने विश्वविद्यालय परिसर हेतु रु. 55.36 लाख की कीमत का लाइटिंग सिस्टम एवं अन्य उपस्कर क्रय किये एवं इस व्यय को वर्ष 2014-15 के दौरान गैर-योजनागत अनुदान के 'परिसर अनुरक्षण' मद के तहत प्रभारित किया गया। यद्यपि, उन्होंने इसे 'स्थायी परिसम्पत्ति' के तहत पूंजीकृत नहीं किया, परिणामतः तुलन पत्र की स्थायी परिसम्पत्ति में कम का और आय एवं व्यय लेखा में, रु. 49.06 लाख अधिक व्यय का आंकलन किया गया। परिणामस्वरूप, प्रभारित मूल्यहास में रु. 22.81 लाख कम का और अधिशेष आय में इसी राशि का अधिक का आंकलन किया गया।
- (अ. 1.6) विश्वविद्यालय ने भवन, सड़क एवं परीक्षा हॉल के निर्माण पर रु. 53.47 लाख व्यय किये, रु. 14.09 लाख के उपस्कर अधिप्राप्त किये। आरसीए के गैर आवर्ती अनुदान से रु. 0.10 लाख की पुस्तकें एवं जर्नल क्रय किये तथा आरसीए के आवर्ती अनुदान से रु. 11.70 लाख का फर्नीचर क्रय किया। परन्तु स्थायी परिसम्पत्ति की कुल कीमत रु. 79.40 लाख तुलनपत्र में 'स्थायी परिसम्पत्ति' मद के तहत पूंजीकृत नहीं किया गया। परिणामतः तुलन पत्र में स्थायी परिसम्पत्ति एवं पूंजी निधि का रु. 75.56 लाख कम का आंकलन किया गया। परिणामस्वरूप, प्रभारित मूल्यहास रु. 3.84 लाख कम एवं अधिशेष आय में इसी राशि का अधिक का आंकलन किया गया।
- (अ. 1.7) वर्ष 2014-15 में ग्यारहवीं योजना के अंतर्गत विश्वविद्यालय के केन्द्रीय पुस्तकालय में रु. 48.47 लाख की दो लिफ्ट लगाई गई, जिन्हें तुलनपत्र में स्थायी परिसम्पत्ति (अनुसूची-4) की पुस्तकालय उपस्कर मद में पूंजीकृत नहीं किया गया। परिणामतः स्थायी परिसम्पत्ति एवं पूंजी निधि का तुलनपत्र में रु. 41.20 लाख कम का आंकलन किया गया। परिणामस्वरूप, प्रभारित मूल्यहास रु. 7.27 लाख कम एवं अधिशेष आय का इस राशि का अधिक का आंकलन किया गया।
- (अ. 1.8) यद्यपि मे. हिन्दुस्तान इन्टरप्राइजेज ने (मार्च 2015) में रु. 38.38 लाख कीमत का सामान व मे. गोडरेज एवं वॉयस मेन. कं. लिमिटेड ने रु. 4.05 लाख कीमत का सामान की आपूर्ति दिसम्बर, 2014 में विश्वविद्यालय को की तथा इसी माह में इसका बिल भी प्रस्तुत कर दिया। विश्वविद्यालय ने वर्ष 2014-15 के दौरान रु. 42.43 लाख का भुगतान नहीं किया। विश्वविद्यालय ने इसे न तो वर्तमान देनदारियों के तहत दर्शाया तथा न ही वर्ष 2014-15 के तुलन पत्र में स्थायी परिसम्पत्ति के तहत संबंधित मद में इसे पूंजीकृत किया। परिणामस्वरूप वर्तमान देनदारियों एवं स्थायी परिसम्पत्ति में रु. 42.43 लाख कम का आंकलन किया गया।
- (अ. 1.9) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने वर्ष 2009 में ग्यारहवीं योजना के दौरान भवन निर्माण घटक के अंतर्गत जिन स्थानों पर निर्माण कार्य प्रस्तावित है वहाँ के निचले स्तर की भूमि के भराव हेतु रु. 500.00 लाख आवंटित किये। वर्ष 2013-14 में, इसमें से रु. 35.22 लाख सीपीडब्ल्यूडी को दिए गया और इसे अंतिम व्यय के रूप में दर्शाया तथा इसे पूंजीकृत भी किया। परन्तु प्रपत्र-65 के अनुसार सीपीडब्ल्यूडी ने मार्च 2015 तक इसका उपयोग नहीं किया। परिणामस्वरूप, स्थायी परिसम्पत्ति और पूंजी निधि में अधिक का आंकलन किया गया।
- (अ. 1.10) विश्वविद्यालय में वर्ष 2014-15 के दौरान अतिथि गृह निधि से रु. 2.57 लाख का फर्नीचर क्रय किया परन्तु इसे विश्वविद्यालय के तुलनपत्र में पूंजीकृत नहीं किया गया। परिणामतः तुलनपत्र के स्थायी परिसम्पत्ति एवं पूंजी निधि में रु. 2.44 लाख कम का आंकलन किया गया। परिणामस्वरूप, प्रभारित मूल्य हास में रु. 0.13 लाख कम का तथा इसी राशि की अधिशेष आय का अधिक का आंकलन किया गया।

(अ. 1.11) वर्ष 2014-15 के लेखा के अनुसार विश्वविद्यालय ने रू. 25.43 करोड़ की लागत के 7 कार्यों को चालू कार्यों में दर्शाया है (अनुसूची-4 स्थायी परिसम्पत्ति), जबकि सीपीडब्ल्यूडी ने अपने विवरण में रू. 24.76 करोड़ चालू कार्यों को दर्शाया है। इस प्रकार विश्वविद्यालय ने रू. 0.67 करोड़ के अधिक का कार्य दर्शाया है। पुनः सीपीडब्ल्यूडी ने मार्च, 2015 तक प्राप्त रू. 242.24 लाख अग्रिम के सापेक्ष रू. 374.08 लाख लागत की तीन कार्य योजनाओं को पूर्ण किया। परन्तु इसे पूंजीकृति नहीं किया गया। परिणामस्वरूप स्थायी परिसम्पत्ति को कम का एवं चालू कार्य का अधिक का आंकलन किया गया।

(अ-2) वर्तमान परिसम्पत्तियाँ (अनुसूची-5 एवं 5अ)

ऋण, अग्रिम एवं नकदी तथा बैंक अधिशेष रू. 58.42 करोड़। विश्वविद्यालय में तीन महिला छात्रावास एवं तीन पुरुष छात्रावास हैं। सभी छात्रावासों का अलग खाता एवं संबंधित रोकड़ बही है। इन लेखों की रोकड़ बही में निम्नलिखित कमियों को दर्शाया गया है।

(अ. 2-1) वर्ष 2014-15 में विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखा में रू. 6.01 लाख की प्रवेश शुल्क को स्थानांतरित नहीं किया गया है परिणामतः विश्वविद्यालय के 31 मार्च 2015 तक के मुख्य तुलन पत्र में आय एवं 'व्यय लेखा में आय' का कम तथा 'वर्तमान परिसम्पत्ति' के तहत अंतिम शेष का भी कम आंकलन किया गया।

(अ.2-2) विश्वविद्यालय के तुलन पत्र में 'वर्तमान देनदारियाँ' एवं 'वर्तमान परिसम्पत्ति' के तहत छात्रावास की रू. 14.39 लाख की जमानत राशि को दर्शाया नहीं गया था। परिणामतः 'वर्तमान देनदारियाँ' एवं 'वर्तमान परिसम्पत्ति' में काम का आंकलन किया गया।

(अ. 2-3) छात्रावास ने रू. 8.21 लाख (रू. 5.38 लाख विद्युत शुल्क एवं रू. 2.83 लाख कमरे का किराया) विश्वविद्यालय के मुख्य लेखा में स्थानांतरित नहीं किया। परिणामतः तुलन पत्र में 'वर्तमान परिसम्पत्ति' के तहत अंतिम अधिशेष तथा आय एवं व्यय लेखा में आय का कम का आंकलन किया गया।

(अ.2-4) विश्वविद्यालय द्वारा महिला एवं पुरुष छात्रावास से संबंधित लेखों के रू. 48.25 लाख के समेकित अंतिम अधिशेष को विश्वविद्यालय के मुख्य लेखा में नहीं दर्शाया गया। यह राशि विश्वविद्यालय के मुख्य लेख में शामिल नहीं है। परिणामतः आय एवं व्यय लेखा में आय का तथा तुलन पत्र में 'वर्तमान परिसम्पत्ति' के तहत अंतिम अधिशेष का कम का आंकलन किया गया।

(अ.2-5) मार्च 2015 तक विश्वविद्यालय के छात्रावासों के बचत खातों से अर्जित रू. 3.85 लाख की ब्याज की राशि को विश्वविद्यालय के मुख्य खाते में नहीं दर्शाया गया है। परिणामतः तुलन पत्र में 'वर्तमान परिसम्पत्ति' के तहत अंतिम अधिशेष तथा आय एवं व्यय लेखा में आय का कम का आंकलन किया गया।

(अ.2-6) विश्वविद्यालय के छात्रावासों ने अतिथि प्रभार एवं अन्य प्राप्ति से मार्च, 2015 तक रू. 4.83 लाख वसूल किया परन्तु इसे विश्वविद्यालय के मुख्य खाते में आय के रूप में सम्मिलित नहीं किया गया। परिणामतः तुलन पत्र में 'वर्तमान परिसम्पत्ति' के तहत अंतिम अधिशेष तथा आय एवं व्यय लेखा में आय का कम का आंकलन किया गया।

- (अ.2-7) विश्वविद्यालय के अतिथि गृह की रोकड़ बही में 31 मार्च, 2015 तक अंतिम अधिशेष रू. 1.31 लाख है। जबकि बैंक पासबुक में रू. 4.99 लाख का अधिशेष दर्शाया गया है। रू. 3.68 लाख (रू. 4.99 लाख- रू. 1.31 लाख) को बैंक समायोजन विवरण बनाते समय समायोजित नहीं किया है। इसके अतिरिक्त अंतिम अधिशेष को विश्वविद्यालय के वार्षिक लेख में समाविष्ट नहीं किया गया। परिणामस्वरूप, 'वर्तमान देनदारियाँ' एवं वर्तमान परिसम्पत्ति में कम का आंकलन किया गया।
- (अ.2-8) वर्ष 2014-15 के दौरान विश्वविद्यालय के अतिथि गृह द्वारा कमरे के किराये के रूप में प्राप्त रू. 6.49 लाख की धनराशि को विश्वविद्यालय के मुख्य लेखा में स्थानांतरित नहीं किया गया। परिणामतः तुलन पत्र में 'वर्तमान परिसम्पत्ति' के तहत अंतिम अधिशेष तथा आय एवं व्यय लेखा में आय का कम का आंकलन किया गया।
- (अ.2-9) एनपीएस के तुलन पत्र के तहत विश्वविद्यालय ने रू. 5.00 लाख परिसम्पत्ति में निवेश/एफ.डी.आर. के तहत दर्शाया है, परन्तु इसे विश्वविद्यालय के मुख्य लेखा के तुलन पत्र के 'वर्तमान परिसम्पत्ति' के तहत नहीं दर्शाया गया। परिणामस्वरूप तुलन पत्र में परिसम्पत्ति में स्थायी परिसम्पत्ति एवं पूंजी निधि में वर्तमान देनदारियों में कम का आंकलन किया गया।
- (अ.2-10) भविष्य निधि लेखा के तुलन पत्र के अनुसार परिसम्पत्ति में निवेश एफ.डी.आर. के तहत विश्वविद्यालय ने रू. 511.28 लाख दर्शाये है। परन्तु इसे विश्वविद्यालय के मुख्य लेखा में तुलन पत्र के 'स्थायी परिसम्पत्ति' के तहत नहीं दर्शाया गया है। परिणामस्वरूप तुलन पत्र में परिसम्पत्ति में वर्तमान परिसम्पत्ति एवं पूंजी निधि में वर्तमान देनदारियों में कम का आंकलन किया गया।
- (अ.2-11) वर्ष 2014-15 के भविष्य निधि खाता के तुलन पत्र के अनुसार विश्वविद्यालय ने भविष्य निधि खाता के तुलन पत्र के देनदारियों में बयाना और प्रतिभूति जमा खाता में रू. 30.55 लाख दर्शाये हैं। जबकि, बयान व प्रतिभूति जमा राशि की वापसी संविदाकार (ठेकेदार) को होनी है। इसे विश्वविद्यालय के मुख्य लेखा के तुलन पत्र में देनदारियों के तहत दर्शाया जाना चाहिए। परन्तु विश्वविद्यालय द्वारा इसका अनुपालन नहीं किया गया परिणामस्वरूप, वर्तमान देनदारियों एवं वर्तमान परिसम्पत्तियों में कम का आंकलन किया गया।
- (अ.2-12) विश्वविद्यालय ने 31 मार्च, 2015 के तुलन पत्र में 'वर्तमान देनदारियाँ' मद के तहत प्रतिबद्ध देनदारियों के तहत रू. 233.06 लाख के सापेक्ष रू. 27.63 लाख की राशि को प्रतिधारण राशि के रूप में दर्शाया है। इस प्रकार विश्वविद्यालय ने तुलन पत्र में वर्तमान देनदारियों के तहत रू. 205.38 लाख (रू. 233.06 लाख- रू. 27.68 लाख) की कम की वर्तमान देनदारियों को दर्शाया है। इसके परिणामस्वरूप, 31 मार्च 2015 के तुलन पत्र में वर्तमान देनदारियों एवं स्थायी परिसम्पत्ति में कम का आंकलन किया गया।
- (अ.2-13) पॉलिसी रिसर्च के डीएसटी सेन्टर के तहत समन्वयक द्वारा दिसंबर, 2014 में कार्यशाला क्षेत्रीय दौरे हेतु रू. 2.47 लाख की निकासी की गयी परन्तु मार्च, 2015 तक इसका उपयोग नहीं किया गया। फिर भी, समन्वयक द्वारा उपयोगिता प्रमाणपत्र में दर्शाया गया है और विश्वविद्यालय ने वार्षिक

लेखा में इसे अंतिम खर्च माना है। इस प्रकार विश्वविद्यालय ने इसे तुलन पत्र में वर्तमान परिसम्पत्ति में अग्रिम के रूप में नहीं दर्शाया है इस प्रकार पूंजीनिधि एवं वर्तमान परिसम्पत्ति में कम का आंकलन किया गया।

(अ-3) वर्तमान देनदारियां एवं प्रावधान (अनुसूची-3)

लेखा के नवीन प्रारूप अनुसार, अप्रयुक्त अनुदान को वर्तमान देनदारियों के तहत दर्शाया जाना चाहिए। यद्यपि, विश्वविद्यालय ने अप्रयुक्त अनुदान रु. 2482.15 लाख को वर्तमान देनदारियों की जगह पर समग्र निधि/पूंजीनिधि के तहत दर्शाया है। परिणामस्वरूप वर्तमान देनदारियों का कम का एवं समग्र निधि पूंजीनिधि का रु. 2482.15 लाख अधिक का आंकलन किया गया।

(ब) आय एवं व्यय लेखा-

सहायता अनुदान/आर्थिक सहायता (अनुसूची-6) रु. 53.02 करोड़

हालांकि, विश्वविद्यालय ने रु. 41.91 लाख की आय को आय एवं व्यय लेखा में प्रोद्भूत व्याज के रूप में आय और भविष्य निधि खाता के तुलन पत्र में परिसम्पत्ति के तहत दर्शाया है। परन्तु विश्वविद्यालय ने वर्ष 2014-15 के दौरान विश्वविद्यालय के मुख्य लेखा में प्रोद्भूत व्याज को नहीं दर्शाया है। परिणामस्वरूप, मुख्य तुलन पत्र में अधिशेष और वर्तमान परिसम्पत्तियाँ का कम का आंकलन किया गया।

(स) सामान्य

(स-1) विश्वविद्यालय ने विश्वविद्यालय का आय व व्यय लेखा तथा प्राप्तियां एवं भुगतान लेखा, भविष्य निधि, नई पेंशन योजना, स्थापना, शिक्षा तथा नवीन पाठ्यक्रम का अलग-अलग तुलन पत्र तैयार किया है और इस संबंध में अंतिम शेष को विश्वविद्यालय के मुख्य लेखा के तुलन पत्र में वर्तमान परिसम्पत्तियों एवं देनदारियों के तहत प्रदर्शित किया गया है। लेकिन इन खातों के लेन-देन का ब्यौरा विश्वविद्यालय के मुख्य लेखा में परिलक्षित नहीं होता है। पिछले लेखा रिपोर्ट में इसका जिक्र किया गया था परन्तु विश्वविद्यालय के मुख्य खातों में इन खातों के समेकन के लिए विश्वविद्यालय प्रबंधतंत्र द्वारा कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं की गयी है।

(स-2) यह देखा गया है कि बी.बी.ए.यू. ने सेवानिवृत्ति लाभों (उदाहरणार्थ, पेंशन, संचित छुट्टी नकदीकरण एवं ग्रेच्युटी) के संबंध में अपनी लेखांकन नीति का खुलासा नहीं किया है। हालांकि, इस संबंध में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नए लेखा प्रपत्र एवं एएस 15 आईसीएआई के अनुसार बीमांकिक आधार पर नये प्रारूप में प्रावधान नहीं किया गया है।

(स.3) बी.बी.ए.यू. ने इस लेखा को तैयार करने की महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों को प्रकट नहीं किया है। यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी लेखा प्रपत्र का उल्लंघन है।

(डी) सहायता अनुदान-

विश्वविद्यालय का वित्तपोषण मुख्यतः विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त सहायता-अनुदान से होता है। वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान विश्वविद्यालय को रु. 5779.85 लाख (ग्यारहवीं योजना का रु. 3.42 लाख + बारहवीं योजना रु. 4252.60 लाख + गैर योजनागत रु. 1046.11 लाख + अन्य (ईएमएफ) रु. 477.72 लाख) एवं आन्तरिक स्रोतों से निर्मित रु. 1774.14 लाख की निधि प्राप्त हुई।

विश्वविद्यालय के पास सहायता अनुदान का प्रारम्भिक शेष रु. 3808.79 लाख है। (ग्यारहवीं योजना का रु. 1249.89 लाख + बारहवीं योजना का रु. 357.48 लाख + गैर योजनागत रु. 905.19 लाख + अन्य (ईएमएफ) रु. 1296.23 लाख शामिल है) कुल उपलब्ध निधि रु. 11362.78 लाख में से विश्वविद्यालय द्वारा रु. 7893.20 लाख का व्यय किया गया (इसमें ग्यारहवीं योजना रु. 1345.53 लाख + बारहवीं योजना रु. 2604.38 लाख + गैर योजनागत रु. 2380.98 लाख + अन्य (ईएमएफ) रु. 1562.31 लाख शामिल है) और अंतिम शेष रु. 3469.58 लाख बचा रहा (इसमें 31 मार्च 2015 तक का ग्यारहवीं योजना रु. 361.48 लाख + बारहवीं योजना रु. 2069.32 लाख + गैर योजना रु. 51.35 लाख अन्य (ईएमएफ) रु. 987.43 लाख शामिल है)

(अ) पूर्व के पैराग्राफों में हमारे आंकलन के आधार पर हम यह प्रतिवेदन करते हैं कि इस रिपोर्ट से संबंधित तुलन पत्र, आय एवं व्यय लेखा तथा प्राप्ति एवं भुगतान लेखा, लेखा-पुस्तकों के अनुरूप है।

(आ) हमारी राय में, सर्वोत्तम सूचना और हमें दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार, लेखाकरण नीतियों एवं नोट्स ऑन एकाउन्ट्स के साथ पठित तथा उपर्युक्त दिए गए संगत मामलों व इस लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के परिशिष्ट में वर्णित अन्य मामलों के आधार पर, उक्त वित्तीय विवरण सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करते हैं तथा भारत में स्वीकृत सामान्य लेखाकरण सिद्धांतों के अनुरूप है:

(क) जहाँ तक विश्वविद्यालय के दिनांक 31 मार्च, 2015 के मामलों की स्थिति, इसके तुलन-पत्र का संबंध है, और

(ख) जहाँ तक उस तिथि को समाप्त वर्ष हेतु सरप्लस आय एवं व्यय लेखा का संबंध है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वास्ते और उनकी ओर से

प्रधान लेखा परीक्षक निदेशक (मध्य)


स्थान: लखनऊ

दिनांक:

अस्वीकरण- " प्रस्तुत प्रतिवेदन मूलरूप से अंग्रेजी में लिखित पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिंदी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा।"

संलग्नक

- (1) आंतरिक लेखा प्रणाली की पर्याप्तता
विश्वविद्यालय का अपना न तो कोई आंतरिक लेखा विंग है और न ही आंतरिक लेखा नियमावली तैयार की गई है इस संदर्भ में आंतरिक लेखा प्रणाली अपर्याप्त है।
- (2) आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता।
विश्वविद्यालय की आंतरिक लेखा नियंत्रण प्रणाली निम्नलिखित विसंगतियों को परिलक्षित करती है-
अचल सम्पत्तियों/इन्वेन्टरी का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया।
वार्षिक लेखा रिपोर्ट को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा निर्धारित प्रारूप में नहीं तैयार किया गया।
वर्ष के दौरान अर्जित अचल सम्पत्तियों का पूंजीकरण नहीं किया गया।
निधि अपयोजन द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया गया।
अग्रिम का समायोजन न होना।
वित्त अधिकारी का मुख्य पद कई वर्षों से रिक्त है।
नवीन पाठ्यक्रम, शिक्षा, स्थापना, एन.पी.एस, एवं सामान्य भविष्य निधि के लेखों का विश्वविद्यालय के मुख्य लेखों में समेकन नहीं किया गया।
- (3) अचल संपत्तियों के भौतिक सत्यापन की व्यवस्था-
विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 2014-15 के दौरान अचल संपत्तियों का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया। परिणामस्वरूप लेखा परीक्षण के लिए भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट उपलब्ध नहीं करायी गई।
- (4) वस्तु सूची (इन्वेन्टरी) के भौतिक सत्यापन की व्यवस्था-
वर्ष 2014-15 के दौरान इन्वेन्टरी का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया।
- (5) सांविधिक देय राशि के भुगतान में नियमितता-
सांविधिक देय राशि नियमित रूप से जमा किए जा रहे हैं।



उप निदेशक लेखा परीक्षा (मध्य)

BABASAHEB BHIMRAO AMBEDKAR UNIVERSITY

(A CENTRAL UNIVERSITY)

VIDYA VIHAR, RAEBARELI ROAD, LUCKNOW

**BABASAHEB
BHIMRAO
AMBEDKAR
UNIVERSITY**



• LUCKNOW •

**प्रज्ञा शील करुणा
ESTABLISHED 1996**

ANNUAL ACCOUNTS FOR THE YEAR

2014-2015

INDEX

S. No	Particulars	Page No.
1	Balance Sheet	1
2	Income & Expenditure Account	2
	Schedules forming Part of Balance Sheet as at 31.03.2015	
3	Schedule 1 - Capital Fund	5
4	Schedule 2 - Earmarked / Endowment Funds	6-8
5	Schedule 3 - Current Liabilities and Provisions	9-10
6	Schedule 4 - Fixed Assets	11-13
7	Schedule 4 A – Investment from Earmarked / Endowment funds	14
8	Schedule 4 B – Investment – Others	14
9	Schedule 5 - Current Assets, Loans & Advances	15-19
	Schedules forming Part of Income & Expenditure Account for the year ended 31st March, 2015	
10	Schedule 6 - Grants / Subsidies (Irrevocable Grants and Subsidies received)	23
11	Schedule 7- Academic Receipts	24
12	Schedule 8 - Income from Investments	25
13	Schedule 9 - Other Income	26-27
14	Schedule 9 A Prior Period Income	28
15	Schedule 10 - Establishment Expenses	29
16	Schedule 11 - Academic Expenses	30
17	Schedule 12 - Administrative Expenses	31-32
18	Schedule 12 A Transportation	33
19	Schedule 13 - Repairs & Maintenance	34
20	Schedule 13 A Finance Cost	35
21	Schedule 14 Prior Period Expenses	36
	Schedules forming Part of the Accounts for the year ended 31st March, 2015	
22	Receipts and Payments Account	37-38
	Accounts of Provident Funds and New Pension Scheme	
23	Balance Sheet - Provident Fund Account	41-42
24	Income & Expenditure Account - Provident Fund Account	43
25	Receipts & Payments Account - Provident Fund	44

26	Balance Sheet - New Pension Scheme	45
27	Income & Expenditure Account - New Pension Scheme	46
28	Receipts & Payments Account - New Pension Scheme	47
29	Balance Sheet - ET 2015	48
30	Income & Expenditure Account - ET 2015	49
31	Receipts & Payments Account - ET 2015	50
32	Balance Sheet - Education	51
33	Income & Expenditure Account - Education	52
34	Receipts & Payments Account - Education	53
35	Balance Sheet - New Courses	54
36	Income & Expenditure Account - New Courses	55
37	Receipts & Payments Account - New Courses	56
38	Note on Accounts	57
39	Staff strength and Students Enrolment	58

BABASAHEB BHIMRAO AMBEDKAR UNIVERSITY, LUCKNOW
BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH, 2015

Capital / Corpus Fund and Liabilities

Liabilities	Schedule	Current Year	Previous Year
Corpus/Capital Fund	1	1,911,360,891.51	1,701,396,058.07
Earmarked / Endowment Funds	2	90,826,458.00	106,991,248.00
Current Liabilities & Provisions	3	90,267,349.00	109,945,374.19
Previous year adjustment		131,098,869.00	
Total		2,223,553,567.51	1,918,332,680.26
Assets			
Fixed Assets (Net Block)			
Tangible Assets	4	1,373,027,424.33	517,832,061.28
Intangible Assets	4	833,656.60	
Capital Work-in-Progress	4	254,261,654.95	768,058,325.90
Fixed Assets (Previous year adjustment)	4	11,160,770.06	8,542,888.00
Investments From Earmarked/ Endowment Funds	4A		
Long Term			
Short Term			
Investments-Others	4B		
Current Assets	5	347,229,301.60	381,129,599.47
Loans , Advances & Deposits	5A	237,040,760.00	242,769,806.19
			-
Total		2,223,553,567.51	1,918,332,680.26

BABASAHEB BHIMRAO AMBEDKAR UNIVERSITY, LUCKNOW
INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2015

Amount in Rs.

	Schedule		Current Year	Previous Year
A. Income				
Grants in aid / Subsidies	6		530,213,600.00	267,677,408.00
Academic Receipts	7		25,423,691.83	7,716,485.71
Income from Investments	8		18,557,981.00	21,178,290.00
Interest Earned	8A		0.00	0.00
Other Income	9		52,326,909.10	12,234,842.06
Prior Period Income	9A		12,750,262.00	
Total (A)			639,272,443.93	308,807,025.77
B. Expenditure				
Staff Payments & Benefits (Establishment expenses)	10		191,310,493.00	168,399,318.00
Academic Expenses	11		39,458,980.00	50,042,718.00
Administrative & General Expenses	12		52,893,567.00	57,018,178.70
Transportation Expenses	12A		2,330,600.00	1,599,307.00
Repairs and Maintenance	13		62,986,803.00	172,712,376.00
Finance Cost	13A		15,855.00	8,253.00
Depreciation	4		73,103,588.36	44,275,958.00
Depreciation (Previous year adjustment)	4		(2,617,882.06)	(8,542,888.00)
Other Expenses			0.00	0.00
Prior Period Expenses	14		9,825,607.19	
Total (B)			429,307,611.49	485,513,220.70
Balance being surplus / (Deficit) carried to Capital Fund (A-B)			209,964,833.44	(176,706,193.93)

Schedules forming Part of Balance Sheet as at 31.03.2015

BABA SAHEB BHIMRAO AMBEDKAR UNIVERSITY, LUCKNOW**Schedule 1 – Corups/Capital Fund****Amount in Rs.**

Particulars		Current Year	Previous Year
	Balance at the beginning of the year	1,701,396,058.07	1,878,102,252.00
Add:	Grants from UGC, Govt. of India, and State Govt. utilized for capital expenditure		
Add:	Assets Purchased out of Corpus Fund & Earmarked Funds		
Add:	Assets Donated/Gifts Received		
Add:	Assets Purchased out of Sponsored Project Funds		
Add:	Surplus transferred from the Income and Expenditure A/c	209,964,833.44	(176,706,193.93)
Total		1,911,360,891.51	1,701,396,058.07
(Deduct)	Adjustments Previous Years		
(Deduct)	Deficit transferred from the Income & expenditure account		
Balance at the year end		1,911,360,891.51	1,701,396,058.07

Schedule 2: Earmarked/Endowment Funds

Particulars	SC/ST/ OBC Scholarship	HBA Fund	Dr. Abha Misra	EMF	Rajiv Gandhi National Fellowship Fund	RCA	Dr.Ram Chandra- DBT	SAP Sociology	ASC
A.									
a) Opening balance	1,043,737.00	1,195,961.00	202,820.00	28,781,150.00	19,094,660.00	29,684,658.00	296,447.00	142,086.00	243,962.00
b) Additions during the year			429,450.00	24,891,206.00		-	-		
c) Income from investments made of the funds									
d) Accrued Interest on investments made of the funds									
e) Accrued Interest on Advances									
f) Interest on Savings Bank a/c/FDR A/c	47,285.00	10,560.00	4,416.00	823,055.00	603,080.00	1,074,438.00	13,361.00	10,046.00	9,856.00
g) Other additions	-	11,280.00	26,000.00	62,037.00	-	140,936.00	-		
Total (A)	1,091,022.00	1,217,801.00	662,686.00	54,557,448.00	19,697,740.00	30,900,032.00	309,808.00	152,132.00	253,818.00
B. Utilization/Expenditure towards objectives of funds									
i) Revenue expenditure	-		435,254.00	22,470,952.00	11,962,827.00	12,303,546.00	309,808.00	152,065.00	
ii) Capital Expenditure			-	-		-	-		
ii) Investment/FDR		-		-					
Total (B)	-	-	435,254.00	22,470,952.00	11,962,827.00	12,303,546.00	309,808.00	152,065.00	-
Closing balance at the yearend (a - b)	1,091,022.00	1,217,801.00	227,432.00	32,086,496.00	7,734,913.00	18,596,486.00	-	67.00	253,818.00
Represented by									
Cash And Bank Balance	1,091,022.00	317,801.00	227,432.00	27,586,496.00	7,734,913.00	18,596,486.00	-	67.00	253,818.00
Investments/FDR		900,000.00		4,500,000.00					
Interest accrued but not due on Investments									
Interest accrued but not due on Advances									
Recoverable amount out of March Salary									
Current Year	1,091,022.00	1,217,801.00	227,432.00	32,086,496.00	7,734,913.00	18,596,486.00	-	67.00	253,818.00
Previous Year	1,043,737.00	1,195,961.00	202,820.00	28,781,150.00	19,094,660.00	29,684,658.00	296,447.00	142,086.00	243,962.00

Schedule 2: Earmarked/Endowment Funds

Particulars	Recruitment	DST CPR	CSSEIP	Dr Anand Prakash-DBT	Dr Naveen Arora	Dr Ananad Praksh-UGC	JRF Fellowship	ICSSR (Prof Narendra Kumar)	Media Centre
A.									
a) Opening balance	-	-	395,163.00	652,228.00	11,252.00	367,614.00	108,056.00	628,443.00	7,632,404.00
b) Additions during the year		5,000,000.00	455,070.00	-	291,995.00	-	15,000,000.00	608,568.00	-
c) Income from investments made of the funds									
d) Accrued Interest on investments made of the funds									
e) Accrued Interest on Advances									
f) Interest on Savings Bank a/c/FDR A/c	26,272.00	108,098.00	17,120.00	19,539.00	2,040.00	9,883.00	70,479.00	20,770.00	315,431.00
g) Other additions	22,994.00	50,644.00					93,802.00	1,576,819.00	179,000.00
Total (A)	49,266.00	5,158,742.00	867,353.00	671,767.00	305,287.00	377,497.00	15,272,337.00	2,834,600.00	8,126,835.00
B. Utilization/Expenditure towards objectives of funds									
i) Revenue expenditure	34.00	5,108,550.00	423,069.00	261,857.00	290,885.00	285,420.00	9,864,901.00	2,049,170.00	53,829.00
ii) Capital Expenditure									122,177.00
ii) Investment/FDR									
Total (B)	34.00	5,108,550.00	423,069.00	261,857.00	290,885.00	285,420.00	9,864,901.00	2,049,170.00	176,006.00
Closing balance at the yearend (a - b)	49,232.00	50,192.00	444,284.00	409,910.00	14,402.00	92,077.00	5,407,436.00	785,430.00	7,950,829.00
Represented by									
Cash And Bank Balance	49,232.00	50,192.00	444,284.00	409,910.00	14,402.00	92,077.00	5,407,436.00	785,430.00	7,950,829.00
Investments/FDR									
Interest accrued but not due on Investments									
Interest accrued but not due on Advances									
Recoverable amount out of March Salary									
Current Year	49,232.00	50,192.00	444,284.00	409,910.00	14,402.00	92,077.00	5,407,436.00	785,430.00	7,950,829.00
Previous Year	-	-	395,163.00	652,228.00	11,252.00	367,614.00	108,056.00	628,443.00	7,632,404.00

Schedule 2: Earmarked/Endowment Funds

Particulars	Dr. Narendra Kumar-DES	Pension Fund	Startup Grant	Prof Narendra Kumar-UGC MRP	Dr.Anand Prakash DST	Dr.Gaurav Kaithwas	Dr.Ram Naresh Bhargava	Dr.Sudita Saha	SBI	Totals
A.										
a) Opening balance	51,354.00	8,424,397.00	1,722,221.00	441,565.00	73,440.00	2,686,432.00	2,413,426.00	697,772.00		106,991,248.00
b) Additions during the year	-	-	-	-	590,400.00	-	550,000.00	-	6,930,751.00	54,747,440.00
c) Income from investments made of the funds										
d) Accrued Interest on investments made of the funds										
e) Accrued Interest on Advances										
f) Interest on Savings Bank a/c/FDR A/c	851.00	340,345.00	58,668.00	4,936.00	13,615.00	75,931.00	31,686.00	12,084.00		3,723,845.00
g) Other additions	5,000.00	-	79,099.00		9,026.00		43,708.00	8,000.00		2,308,345.00
Total (A)	57,205.00	8,764,742.00	1,859,988.00	446,501.00	686,481.00	2,762,363.00	3,038,820.00	717,856.00	6,930,751.00	167,770,878.00
B. Utilization/Expenditure towards objectives of funds										
i) Revenue expenditure	52,000.00		445,132.00	446,501.00	428,247.00	635,286.00	693,957.00	356,730.00	3,662,813.00	72,692,833.00
ii) Capital Expenditure						1,942,791.00	1,861,713.00	324,906.00		4,251,587.00
ii) Investment/FDR										
Total (B)	52,000.00	-	445,132.00	446,501.00	428,247.00	2,578,077.00	2,555,670.00	681,636.00	3,662,813.00	76,944,420.00
Closing balance at the yearend (a - b)	5,205.00	8,764,742.00	1,414,856.00	-	258,234.00	184,286.00	483,150.00	36,220.00	3,267,938.00	90,826,458.00
Represented by										
Cash And Bank Balance	5,205.00	8,764,742.00	1,414,856.00	-	258,234.00	184,286.00	483,150.00	36,220.00	3,267,938.00	85,426,458.00
Investments/FDR										5,400,000.00
Interest accrued but not due on Investments										-
Interest accrued but not due on Advances										
Recoverable amount out of March Salary										
Current Year	5,205.00	8,764,742.00	1,414,856.00	-	258,234.00	184,286.00	483,150.00	36,220.00	3,267,938.00	90,826,458.00
Previous Year	51,354.00	8,424,397.00	1,722,221.00	441,565.00	73,440.00	2,686,432.00	2,413,426.00	697,772.00		106,991,248.00

Schedule 3-Current Liabilities and Provisions

A. CURRENT LIABILITIES	As on 31/03/2015	Addition	As on 31-3-2014
SC/ST CELL	7,400.00		7,400.00
Leave Salary Pension Contribution-N-Plan	48,307.00		48,307.00
EMD	1,388,960.00		1,388,960.00
GIS/GSLIS	151,153.00	(960)	152,113.00
Withheld Amount	3,872,947.00	(5,872,889)	9,745,836.00
Liabilities for GPF	17,380,399.00	16.00	17,380,383.00
Liabilities for CPF	2,987,041.00		2,987,041.00
PF Liability	25,318,255.00		30,188,771.00
NPS liability	4,493,559.00		10,724,127.19
Education	2,303,669.00		8,591,230.00
New Courses	6,204,167.00		3,528,767.00
Medical Advance	466,274.00	444,999.00	21,275.00
Amount payable to State Government	2,305,065.00		2,305,065.00
Security Deposits	957,883.00	42,732.00	915,151.00
Caution Money Deposits	475,305.00		475,305.00
Prorata Pension	311,388.00		311,388.00
CEA Recovery - Non Plan	208,000.00		208,000.00
Maintenance Allowance	3,400.00	(2,000.00)	5,400.00
Recoveries from Salaries/Advance to Staff	1,616,036.00		1,616,036.00
LIC	25,508.00	3,508.00	22,000.00
Sundry Receipts(Liability)	2,430,000.00		2,430,000.00
Retention Amount	2,768,350.00	(103,547.00)	2,871,897.00
Penalty	950,427.00		950,427.00
CV Raman International Fellowship	787.00	(3,686.00)	4,473.00
Donation	68,568.00		68,568.00
TOTAL (A)	76,742,848.00	(5,491,827.00)	96,947,920.19
B. PROVISIONS			-
For TDS	-	(15,875.00)	15,875.00
Central Facility USIC payable(Plan)	-	(16,290.00)	16,290.00
Other(Furniture & Vehicle-Plan) Payable	-	(431,025.00)	431,025.00
Remittance Other Intuitions	79,263.00		79,263.00
TOTAL	79,263.00	(463,190.00)	542,453.00

15.Provisions-Non Plan			-
Pay V C Office	248,797.00	21,663.00	227,134.00
Pay Non Academic Staff(Finance & Registrar Office)	2,997,174.00	21,308.00	2,975,866.00
Pension	103,116.00	98,979.00	4,137.00
Family Pension	16,560.00	3,199.00	13,361.00
Equipment Dr. Anand Prakash	62,782.00		62,782.00
Remuneration to Examiner	129,345.00		129,345.00
Pay Academic	3,910,440.00	299,173.00	3,611,267.00
Others	77,541.00		77,541.00
TOTAL (B)	7,545,755.00	444,322.00	7,101,433.00
TOTAL (A + B)	84,367,866.00	(5,510,695.00)	104,591,806.19
Provisions-XII Plan			-
Pay -Teaching	4,997,635.00	223,899.00	4,773,736.00
Pay -Non Teaching	445,336.00	280,976.00	164,360.00
Pay -CSSEIP Teaching	307,419.00	28,057.00	279,362.00
Pay -CSSEIP Non Teaching	149,093.00	12,983.00	136,110.00
TOTAL (c)	5,899,483.00	545,915.00	5,353,568.00
TOTAL (A + B+C)	90,267,349.00	(4,964,780.00)	109,945,374.19

SCHEDULE 4-FIXED ASSETS

S. No.	DESCRIP-TION	GROSS BLOCK					DEPRECIATION				NET BLOCK		
		Rate of Depre-ciation (%)	Cost/Valuation as at beginning of the year	Additions during the year		Deduction / trf WIP/ Prev Yr Adj	Cost/Valuation at the year end	As at the beginning of the year	Additions during the year	Deductions during the year	Total up to year end	As at the Current Year ended 31.03.2015	As at the Previous Year ended 31.3.2014
				Upto 30.09.2014	After 30.09.2014								
A. Fixed Assets													
1. LAND													
a)	Freehold												
b)	Leasehold	-	146,553,297.00			-	146,553,297.00				146,553,297.00	146,553,297.00	
2. BUILDINGS													
a)	On Freehold		-			-	-					-	
b)	On Leasehold Land		-			-	-					-	
i.	Building & Architectural Work	10.00	11,884,942.15			-	11,884,942.15	10,170,637.86	1,188,494.22		11,359,132.08	10,696,447.94	11,884,942.15
ii.	Administrative Block	10.00	31,961,029.72			-	31,961,029.72	10,954,203.21	3,196,102.97		14,150,306.18	28,764,926.75	31,961,029.72
iii.	Girls Hostel	5.00	37,803,273.96	0		-	8,028,144.00	29,775,129.96	14,940,735.05	1,488,756.50	16,429,491.55	28,286,373.46	37,803,273.96
iv.	Boundary Wall	5.00	979,903.57			-	979,903.57	274,281.43	48,995.18		323,276.61	930,908.39	979,903.57
v.	Site/Campus Development	5.00	13,867,738.98	11,591,439.00	1,259,468.00	12,850,907.00	26,718,645.98	8,846,223.03	1,304,445.60		10,150,668.63	25,414,200.38	13,867,738.98
vi.	Consultation fee to NBCC for Master Plan	5.00	1,294,555.23			-	1,294,555.23	981,384.22	64,727.76		1,046,111.98	1,229,827.47	1,294,555.23
vii.	Consultation fees to UPRNN	5.00	298,392.37			-	298,392.37	226,207.63	14,919.62		241,127.25	283,472.75	298,392.37
viii.	Construction of SAS Building, Guest House	5.00	10,940,305.29			-	10,940,305.29	6,983,855.71	547,015.26		7,530,870.97	10,393,290.03	10,940,305.29
ix.	Furnishing of VC Block	5.00	48,060.31			-	48,060.31	36,433.69	2,403.02		38,836.71	45,657.29	48,060.31
x.	Infrastructure for Hostel/Guest House	5.00	970,751.88			-	970,751.88	361,299.12	48,537.59		409,836.71	922,214.29	970,751.88
xi.	Furnishing of Council Hall	5.00	1,291,959.60			-	1,291,959.60	566,177.40	64,597.98		630,775.38	1,227,361.62	1,291,959.60
xii.	Boys Hostel 2 no 272 capacity each	5.00	128,425,459.40	3,929,732.00		3,929,732.00	132,355,191.40	14,274,002.61	6,617,759.57		20,891,762.18	125,737,431.83	128,425,459.40
xiii.	Central Library	5.00	-		310,663,633.50	310,663,633.50	-	310,663,633.50	-	7,766,590.84	7,766,590.84	302,897,042.66	-
3.	LAB EQUIPMENT -USIC	15.00	23,760,945.24			-	23,760,945.24	3,150,780.77	3,564,141.79	3,256,577.00	3,458,345.56	20,196,803.45	23,760,945.24
4.	VEHICLES	15.00	7,611,096.32	1,502,523.00		1,502,523.00	9,113,619.32	4,005,517.46	1,367,042.90	801,168.00	4,571,392.36	7,746,576.42	7,611,096.32
5.	FURNITURES & FIXTURES	10.00	14,307,258.96	6,372,237.00	15,869,527.00	22,241,764.00	36,549,022.96	2,116,827.05	2,861,425.95		4,978,253.00	33,687,597.01	14,307,258.96
6.	OFFICE EQUIPMENTS	15.00	913,826.84			-	913,826.84	5,060,093.16	137,074.03		5,197,167.19	776,752.81	913,826.84
4.	Overhead Tank 1000 kl/ tubewell	5.00	-		43,518,860.00	43,518,860.00	-	43,518,860.00		1,087,971.50	1,087,971.50	42,430,888.50	-
8.	ELECTRIC INSTALLATIONS (ELECTRIC SUBSTATIC)	10.00	1,446,389.32			-	1,446,389.32	8,111,072.68	144,638.93		8,255,711.61	1,301,750.39	1,446,389.32
9.	BOOK & JOURNALS	60.00	6,281,491.20	499,405.00	16,361,997.00	16,861,402.00	12,287,072.00	35,429,965.20	26,227,747.81	8,977,136.82	35,204,884.63	26,452,828.38	6,281,491.20

10. TUBEWELLS & WATER SUPPLY	15.00	135,443.27			-		135,443.27	1,199,857.43	20,316.49		1,220,173.92	115,126.78	135,443.27
11. COMPUTERISATION OF OFFICE	60.00	4,373,143.80	8,358,973.00	56,722.00	8,415,695.00		12,788,838.80	13,183,912.20	7,656,286.68		20,840,198.88	5,132,552.12	4,373,143.80
12. FURNITURE & OTHER CAPITAL ITEMS	10.00	6,137,778.63			-		6,137,778.63	8,284,750.37	613,777.86		8,898,528.23	5,524,000.77	6,137,778.63
13. EPABX	15.00	37,008.13			-		37,008.13	327,840.87	5,551.22		333,392.09	31,456.91	37,008.13
14. EQUIPMENTS	15.00	50,132,775.80	11,148,672.00	12,103,632.00	23,252,304.00		73,385,079.80	35,800,587.77	10,099,989.57	-1,984,659.00	47,885,236.34	63,285,090.23	50,132,775.80
15. LIBRARY EQUIPMENTS	15.00	87,949.65			-		87,949.65	178,556.35	13,192.45	4,886.00	186,862.80	74,757.20	87,949.65
16. DEPARTMENT EQUIPMENTS	15.00	9,718,376.03			-		9,718,376.03	3,647,523.97	1,457,756.40	539,910.00	4,565,370.37	8,260,619.63	9,718,376.03
17. Construction Virtual Class Room	15.00	470,647.44	-		-		470,647.44	316,327.16	70,597.12		386,924.28	400,050.32	470,647.44
18. Furnishing of Building of SES	5.00	2,983,703.58			-		2,983,703.58	578,590.42	149,185.18		727,775.60	2,834,518.40	2,983,703.58
19. Extension of Rearing House	5.00	3,114,557.61			-		3,114,557.61	258,448.40	155,727.88		414,176.28	2,958,829.73	3,114,557.61
20.. Construction of Auditorium of 1200capacity	5.00	-	-	279,221,210.00	279,221,210.00		279,221,210.00	-	6,980,530.25		6,980,530.25	272,240,679.75	-
21..Construction of Health Centre	5.00			22,791,325.00	22,791,325.00		22,791,325.00	-	569,783.13		569,783.13	22,221,541.88	-
22. Construction of External Services Road Drainage/footpath etc	5.00			124,704,410.00	124,704,410.00		124,704,410.00	-	3,117,610.25		3,117,610.25	121,586,799.75	-
23. Construction of Building of Bio science/Biotechnology phase-I	5.00			-	-		-	-	-		-	-	-
24.Shifting of Statute of Dr. Ambedkar	5.00			15,898,641.75	15,898,641.75		15,898,641.75	-	397,466.04		397,466.04	15,501,175.71	-
25. Construction of Building of legal studies school	5.00			34,638,177.70	34,638,177.70		34,638,177.70	-	865,954.44		865,954.44	33,772,223.26	-
26. Construction/Creation of Central Facility	5.00			3,192,157.00	3,192,157.00		3,192,157.00	-	79,803.93		79,803.93	3,112,353.08	-
TOTAL (A)		517,832,061.28	43402981.00	880279760.95	923682741.95	20,315,216.00	1445773731.23	181063874.83	72746306.90	2617882.00	251192299.73	1373027424.33	517,832,061.28
B. Capital Work in Progress													
(a) Construction Activities Payment to CPWD as an Advance as deposit work													
1. Construction of External Services Road Drainage/footpath etc		103,437,633.00	21,266,777.00		21,266,777.00	124,704,410.00							-103,437,633.00
2. Construction of Shop			1,036,751.00	1,493,273.00	2,530,024.00		2,530,024.00						2,530,024.00
3.Construction Of Moot court				3,843,533.00	3,843,533.00		3,843,533.00						3,843,533.00
4. Construction of Examination Hall			8,619,243.00	2,595,855.00	11,215,098.00		11,215,098.00						11,215,098.00
5.Renovation of Girls Hostel			1,230,925.00		1,230,925.00	8,028,144.00	9,259,069.00						9,259,069.00
6.Construction of Vishakha Boys Hostel			39,941,750.00		39,941,750.00		39,941,750.00						39,941,750.00
7. Construction/Creation of Central Facility		1,267,661.00	1,924,496.00		1,924,496.00	3,192,157.00							1,267,661.00
8. Construction of Central Library		260,398,737.50	50,264,896.00		50,264,896.00	310,663,633.50							260,398,737.50
9.. Construction of Auditorium of 1200capacity		236,973,587.00	42,247,623.00		42,247,623.00	279,221,210.00							236,973,587.00

10. Construction of Building of Bio science/Biotechnology phase-I	55,257,301.95	2,609,283.00		2,609,283.00	-	57,866,584.95					57,866,584.95	55,257,301.95
11. Shifting of Statute of Dr. Ambedkar	14,751,486.75	1,147,155.00		1,147,155.00	15,898,641.75	-					-	14,751,486.75
12. Construction of Building of legal studies school	32,701,733.70	1,936,444.00		1,936,444.00	34,638,177.70	-					-	32,701,733.70
13. Construction of Health Centre	19,751,325.00	3,040,000.00		3,040,000.00	22,791,325.00	-					-	19,751,325.00
14. Overhead Tank 1000 kl/ Tube well	43,518,860.00			-	43,518,860.00	-					-	43,518,860.00
15. Construction of Ambedker Bhawan				-	129,605,596.00	-					129,605,596.00	-
TOTAL (B)	768058325.90	175265343.00	7,932,661.00	183198004.00	972262154.95	124,656,058.95	-	-	-	-	254261654.95	768058325.90
C. Intangible Assets												
Computer Software	60.00			1,190,938.00	1,190,938.00	1,190,938.00		357,281.40		357,281.40	833,656.60	
TOTAL (C)				1,190,938.00	1,190,938.00	1,190,938.00	-	357,281.40	-	357,281.40	833,656.60	-
TOTAL (A + B+C)	1285890387.24	218668324.06	889403360.01	1108071684.01	992577371.01	1571620728.24	181063874.89	73103588.36	2617882.06	251549581.19	1628122735.94	1285890387.24

Schedule 4A: Investment From Earmarked / Endowment funds

		Particulars	Current Year	Previous Year	Previous Year
	1	In Central Govt Securities			
	2	In State Govt. Securities			
	3	Other Approved Securities			
	4	Shares			
	5	Debentures and Bond			
	6	Term Deposits With Bank			
	7	Other (to be specified)			
		Total A	-	-	-

Schedule 4B: Investment - Others

		Particulars	Current Year	Previous Year	Previous Year
	1	In Central Govt Securities			
	2	In State Govt. Securities			
	3	Other Approved Securities			
	4	Shares			
	5	Debentures and Bond			
	6	Other (to be specified)			
		Total A	-	-	-

Schedule 5: Current Assets

	Particulars	Current Year	Previous Year
A	Current Assets:		
1	Inventories - Stationery, Cleaning Material, Building Material, Electrical Material, Lab Chemicals & Spares and Water Supply Material		
2	Cash and Bank Balances:		
a	Cash in hand	268,673.00	250,271.00
b	Bank Balances with scheduled banks		
	- in saving accounts(Annexure-A)	346,960,628.60	380,879,328.47
	- in current accounts		
	- in Deposit account		
3	Sundry Debtors		
	Total A	347,229,301.60	381,129,599.47

Schedule 5A: Loans & Advances & Deposits

		As on 31-3-2015	Addition	As on 31-3-2014
1	Advance to employees (Non Interest Bearing)			
	a. Salary	6,027,080.00	2,693,714.00	3,333,366.00
	b. Festival	72,075.00	600.00	71,475.00
	c. Medical Advance	-		
	d. Others	-		
	e. LTC Advance	5,395,966.00	1,591,684.00	3,804,282.00
	f. TA Advance	149,005.00	67,261.00	81,744.00
2	Long Term Advance to employees (Interest Bearing)	-		
	a. Vehicles	2,032,878.00	(254,198.00)	2,287,076.00
	b. Cycle	593,859.00	4,875.00	588,984.00
	c. Home Loan	63,466.00		63,466.00
	d. Others	-		
	e. Computer Advance	1,088,317.00	(7,392.00)	1,095,709.00
3	Advances & Others Amounts recoverable in cash or	-		
	In kind or for value to be recd :	-		
	a. On capital account	209,714,083.00		209,714,083.00
	b. 10% Payment by Date Govt for Addl Land	10,000,000.00		10,000,000.00
	c. Others	420,000.00		420,000.00
	d. Development Grant(XI th Plan)-PLAN	1,030,220.00		1,030,220.00
	e. Deposit in RLC(Non Plan)	42,410.00		42,410.00
4	Prepaid Expenses	-		
	a. Insurance	-		
	b. Other Expenses	-		

5	Deposits	-		
	a. Telephone	-		
	b. Lease Rent	-		
	c. Electricity	-		
	d. Others	-		
6	Income Accrued	-		
	a. On investments - earmarked fund	-		
	b. on investment - Others	-		
	c. On loan & Advances	-		
	d. Others (Incurred income due unrealized)	-		
7	Others Currents Assets Recoverable from UGC / Sponsored Projects	-		
	a. Debit Bal in Sponsored Projects	-		
	b. Debit bal in sponsored Fellowship	-		
	c. Grant Recoverable	-		
	d. Others Recoverable from UGC	-		
8	Claims Receivables	-		
	a. Deposit in High Court	408,801.00		408,801.00
	b. NPS	-	(9,814,310.19)	9,814,310.19
	c. GPF Advance Recovery	2,600.00		2,600.00
	d. Maintenance of Building(Plan)	-	(11,280.00)	11,280.00
	TOTAL (B)	237,040,760.00	(5,729,046.19)	242,769,806.19

Schedule 5: Current Assets**Annexure-A****Bank Account Name (Amount - Rs.)**

Savings Bank Account	2014-15	2013-14
Canara Bank Non Plan A/c 60	5,135,068.58	90,518,584.65
Canara Bank Dr. A. Prakash DST (2922)	258,234.00	73,440.00
Canara Bank (Abha Mishra DBT Project) 2783	227,432.00	202,820.00
Canara Bank (A/c No. 779) Plan	36,147,479.57	124,988,777.57
Canara Bank (Ambedker Study Centre 2167)	253,818.00	243,962.00
Canara Bank CSSEIP (2641)	444,284.00	395,163.00
Canara Bank Debt Deposit (A/C 0190)	818,255.00	5,688,771.18
Canara Bank Dr. A.P. DBT Project (2767)	409,910.00	652,228.00
Canara Bank Dr. A.P. UGC MRP (2921)	92,077.00	367,614.00
Canara Bank Dr. N.K. Arora UGC MRP 2840	14,402.00	11,252.00
Canara Bank EMF (191)	27,586,496.00	24,281,150.03
Canara Bank (HBA Revolving Fund 0279)	317,801.00	295,961.00
Canara Bank ICSSR Prof Narendra Kumar (3086)	785,430.00	628,443.00
Canara Bank JRF (2904)	5,407,436.00	108,056.00
Canara Bank (Media Center) 4045	7,950,829.00	7,632,404.00
Canara Bank NPS (555)	3,993,559.00	10,224,127.19
Canara Bank Pension Fund A/c No. 4047	8,764,742.00	8,424,397.00
Canara Bank Plan XII Plan (3895)	206,931,972.45	35,747,822.45
Canara Bank Prof. Narendra Kr Pol Sc UGC MRP 4064	-	441,565.00
Canara Bank Prof Ram Chandra (2817)	-	296,447.00
Canara Bank RCA (2086)	18,596,486.00	29,684,658.00
Canara Bank RGNF (2600)	7,734,913.00	19,094,660.00

Canara Bank (SAP Sociology 2841)	67.00	142,086.40
Canara Bank SC/ST Scholarship (0081)	1,091,022.00	1,043,737.00
Canara Bank Startup Grant (Ac No. 4063)	1,414,856.00	1,722,221.00
Canara Bank UGC MRP Dr. Narendra Kumar DES (4046)	5,205.00	51,354.00
Education(5155)	2,303,669.00	8,591,230.00
Dr. Gaurav Kaithwas (5292)	184,286.00	2,686,432.00
Dr. Ram Naresh Bhargava (5293)	483,150.00	2,413,426.00
Dr. Sudita Saha (5294)	36,220.00	697,772.00
Finance Officer, BBAU Lko (New Courses) (5295)	6,204,167.00	3,528,767.00
Recruitment 6233	49,232.00	-
DST CPR 6298	50,192.00	-
State bank Of India	3,267,938.00	
Grand Total	346,960,628.60	380,879,328.47

**SCHEDULES FORMING PART OF THE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED
31ST MARCH 2015**

Schedule-6 Grants/Subsidies

Amount in Rs.

Particulars	Plan		Total Plan	Non Plan	Current year	Previous Year	
	Govt. of India	UGC					
		Plan		XII Plan	UGC	Total	Total
Balance B/F							
Add: Receipts During the year		342,200.00	425,260,000.00	425,602,200.00	104,611,400.00	530,213,600.00	317,677,408.00
Total		342,200.00	425,260,000.00	425,602,200.00	104,611,400.00	530,213,600.00	317,677,408.00
Less: Refund to UGC					-	-	-
Balance		342,200.00	425,260,000.00	425,602,200.00	104,611,400.00	530,213,600.00	317,677,408.00
Less: Utilized for Capital Expenditure (A)						-	-
(Fund Transfer School of Education)		-		-		-	50,000,000.00
Balance		342,200.00	425,260,000.00	425,602,200.00	104,611,400.00	530,213,600.00	267,677,408.00
Less: Utilized for Revenue Expenditure (B)							-
Balance C/F (C)		342,200.00	425,260,000.00	425,602,200.00	104,611,400.00	530,213,600.00	267,677,408.00

Schedule 7 : Academic Receipts**Amount in Rs.**

Particulars	Current year	Previous year
A. Fees from Students		
a) Academic	13,358,725.00	7,279,006.71
1. Tution fee		
2. Admission fees	4,864,500.00	
3. Enrolment fees		
4. Library Admission Fee		
5. Laboratory fee		-
6. Art & Craft		
7. Registration fee		
8. Syllabus fee		
Total (A)	18,223,225.00	7,279,006.71
b) Examination		
1. Admission test fee		
2. Annual examination fees		
3. Marks sheet fees		
4. Entrance examination fee		
Total (B)	-	
c) Other fees	4,633,749.83	437,479.00
1. Identity card fee		
2. Fine/ Miscellaneous fees		
3. Medical fees	67,000.00	
4. Transportation fee		
5. Hostel fees	2,499,717.00	
Total (C)	7,200,466.83	437,479.00
Sale of Publications		
1. Sale of admission forms		
2. Sale of syllabus and Question paper etc.		
3. Sale of prospectus including admission forms		
Total (D)	-	
Other Academic Receipts		
1. Registration fee for workshops, programmes		
2. Registration fee (Academic Staff College)		
Total (E)	-	-
Total [A+B+C+D+E]	25,423,691.83	7,716,485.71

Schedule 8 : Income from Investments**Amount in Rs.**

Particulars	Earmarked / Endowment Funds		Plan / Non-Plan	
	Current year	Previous year	Current year	Previous year
1. Interest				
a. On Government Securities				
b. On Debentures & Bonds				
2. On Term Deposits with scheduled Banks				
3. On Advances (HBA & MCA) (Accrued)			337,099.00	45,730.00
4. On savings Accounts with scheduled banks	3,723,845.00	4,401,047.00	18,220,882.00	21,132,560.00
Total	3,723,845.00	4,401,047.00	18,557,981.00	21,178,290.00
Transferred to respective Earmarked / Endowment Fund				
Balance		Nil		

will appear as Income in the Income & Expenditure Account

Schedule 9 – Other Income**Amount in Rs.**

Sl. No.	Particulars	Current Year	Previous Year
	A. Income from Land & Building		
1	Rent from Guest House	2,075,863.10	37,520.00
2	License Fee from quarters	343,989.00	373,213.00
3	Charges for use of Transport	9,520.00	-
4	Water & Electricity charges	1,705,651.00	712,640.00
5	Leave Salary and Pension Contribution		-
6	Income from Sponsored Schemes / Consultancy Projects		1,120,484.00
7	Recoveries	24,816,526.00	146,954.00
8	Miscellaneous income (Sale Proceeds of unserviceable stores/ empties, waste paper, Tender papers, Fines and, other miscellaneous income)	23,375,360.00	9,844,031.06
	Total	52,326,909.10	12,234,842.06
	B. Sale of Institute's Publication		
	C. Income from holding events		
1	Gross Receipts from annual function / sports carnival		
	Less : Direct expenditure incurred on the annual function sport carnival		
2	Gross Receipts from fetes		
	Less : Direct expenditure incurred on the fetes		
3	Gross Receipts for education tours		
	Less : Direct Expenditure incurred on the tours		
4	Other (to be specified and separately disclosed)		
	Total	-	-
	D. Others		
1	Income from Consultancy		
2	RTI fees		

3	Income from Royalty		
4	Sale of application form (recruitment)		
5	Misc receipts (sale of tender form, waste paper etc.		
6	Profit on Sale / disposal of Assets		
	a. Owned assets		
	b. Assets received free of cost		
7	Grants/ Donations from Institutions, Welfare bodies and International organization		
8	Other (specify)		
	Total	-	-
	Gross Total [A+B+C+D]	52,326,909.10	12,234,842.06

Schedule 9A - Prior Period Income**Amount in Rs.**

Sl. No.	Particulars	Current Year	Previous Year			
1	Books & journal	12,287,072.00		Trf Due to Audit Remarks		
2	For TDS	15,875.00				
3	Central Facility USIC payable(Plan)	16,290.00				
4	Other(Furniture & Vehicle-Plan) Payable	431,025.00				
	Total	12,750,262.00	-			

Schedule 10 – Establishment Expenses**Amount in Rs.**

Particulars		Current Year				Previous Year			
		XII Plan	Plan	Non Plan	Total	XII Plan	Plan	Non Plan	Total
a	Salaries, Wages and Allowances	71,823,643.00		95,489,163.00	167,312,806.00	66,798,942.00	-	85,272,057.00	152,070,999.00
b	Contribution to Provident Fund			-	-		-	454,983.00	454,983.00
c	Contribution to Other Funds (N P S)	4,455,852.00		2,446,630.00	6,902,482.00	4,027,648.00	-	2,001,506.00	6,029,154.00
d	Bonus	34,540.00		259,508.00	294,048.00	34,540.00		246,842.00	281,382.00
e	Leave Travel Concession			48,920.00	48,920.00			3,267,844.00	3,267,844.00
f	Medical Reimbursement			2,553,627.00	2,553,627.00			510,000.00	510,000.00
g	Contribution to CGHS				-				-
h	Tuition Fee Reimbursement				-			-	-
i	Staff Welfare Expenses				-				-
j	Employees' Retirement and Terminal Benefits (Pension, Gratuity, Leave Encashment)	181,069.00		10,568,280.00	10,749,349.00	221,512.00		2,406,067.00	2,627,579.00
k	Fees & Honorarium	2,672,078.00		211,707.00	2,883,785.00	2,012,937.00	-	338,048.00	2,350,985.00
l	Leave Salary and Pension Contribution	92,697.00		-	92,697.00	117,352.00		247,497.00	364,849.00
m	Others-Family Pension			472,779.00	472,779.00			441,543.00	441,543.00
Gross Total		79,259,879.00	-	112,050,614.00	191,310,493.00	73,212,931.00	-	95,186,387.00	168,399,318.00

Schedule 11 – Academic Expenses**Amount in Rs.**

Particulars		Current Year				Previous Year			
		XII Plan	Plan	Non Plan	Total	XII Plan	Plan	Non Plan	Total
1.	Laboratory Running Expenses	797,110.00		8,345,950.00	9,143,060.00	2,139,433.00		4,401,536.00	6,540,969.00
2	Fieldwork / Participation in Conferences	545,994.00		1,996,932.00	2,542,926.00	3,693,426.00		6,463,701.00	10,157,127.00
3	Teaching Aids				-				-
4	Seminars / Workshops	4,481,158.00	771,460.00		5,252,618.00				-
5	NKN virtual classroom			5,000.00	5,000.00			1,978.00	1,978.00
6	Research Activities				-				-
7	Examination/Entrance Test			2,738,910.00	2,738,910.00			3,926,868.00	3,926,868.00
8	Student Welfare Expenses				-				-
9	Scholarship/Stipend to Students				-				-
10	Journals & Publications			30,600.00	30,600.00	12,571,584.00			12,571,584.00
11	Educational Tours			18,318.00	18,318.00			20,541.00	20,541.00
12	Library Exps			77,899.00	77,899.00			32,282.00	32,282.00
13	Academic activities (Various deptt)			1,035,302.00	1,035,302.00			959,858.00	959,858.00
14	Sports Activities	-		294,957.00	294,957.00	1,796,000.00		3,434,327.00	5,230,327.00
15	UGC research Fellowship	18,319,390.00			18,319,390.00	10,601,184.00			10,601,184.00
Gross Total		24,143,652.00	771,460.00	14,543,868.00	39,458,980.00	30,801,627.00		19,241,091.00	50,042,718.00

Schedule 12 – Administrative Expenses

Amount Rs

Particulars			Current Year				Previous Year			
			XII Plan	Plan	Non Plan	Total	XII Plan	Plan	Non Plan	Total
A		Infrastructure								
	I)	Proctor office			121,623.00	121,623.00			112,924.00	112,924.00
	II)	Electricity Expenses			18,764,218.00	18,764,218.00	2,750,644.00		9,141,083.00	11,891,727.00
	III)	Placement exps			2,433,230.00	2,433,230.00			605,276.00	605,276.00
	IV)	Security Expenses			12,941,756.00	12,941,756.00	2,288,301.00		7,751,282.00	10,039,583.00
	V)	Vehicle Running Expenses								-
	VI)	Insurance								-
	VII)	I & GB-misc			8,270.00	8,270.00			14,849.00	14,849.00
B		Communication								
	I)	Postage & Telegram			161,441.00	161,441.00			109,173.00	109,173.00
	II)	Telephones & Fax			1,012,296.00	1,012,296.00			743,946.00	743,946.00
	III)	Internet Connectivity Charges			80,869.00	80,869.00			69,652.00	69,652.00
C		Training/ W.S of staff			32,523.00	32,523.00			500.00	500.00
D		DSW office			2,899.00	2,899.00			5,547.00	5,547.00
E		Advertisement and Publicity			4,129,670.00	4,129,670.00	12,465,690.00		2,859,305.00	15,324,995.00
F		Legal Expenses			386,580.00	386,580.00			581,850.00	581,850.00
G		Others				-				-
	I)	Printing and stationery (consumption)			1,341,588.00	1,341,588.00	719,645.00		2,959,257.00	3,678,902.00
	II)	Newspapers & periodicals			21,778.00	21,778.00			22,487.00	22,487.00
	III)	Travel & Conveyance	771,371.00		1,349,836.00	2,121,207.00	401,010.00	40,000.00	1,068,944.00	1,509,954.00
	IV)	Secret & Confidential work			194,314.00	194,314.00			20,149.00	20,149.00
	V)	Consultancy Fees			707,523.00	707,523.00				-
	VI)	Bank charges								-
	VII)	Meeting expenses			2,265,903.00	2,265,903.00			4,664,314.00	4,664,314.00
	VIII)	Membership Fees			302,733.00	302,733.00	100.00		834,338.70	834,438.70
	IX)	NSDL fees			30,007.00	30,007.00			18,610.00	18,610.00

	X)	Dissertation work			112,500.00	112,500.00			62,573.00	62,573.00
	XI)	Local Conveyance				-				-
	XII)	USIC			183,620.00	183,620.00			123,812.00	123,812.00
	XIII)	Liveries				-				-
	XIV)	Office contingency			1,058,622.00	1,058,622.00			827,267.00	827,267.00
	XV)	Exps on visit of VIP guests			147,769.00	147,769.00			108,900.00	108,900.00
	XVI)	Other miscellaneous administrative expense	83,767.00		4,185,656.00	4,269,423.00	1,071,863.00		4,568,165.00	5,640,028.00
	XVII)	VAT Paid							6,722.00	6,722.00
	VIII)	Income Tax			61,205.00	61,205.00				-
Gross Total			855,138.00		52,038,429.00	52,893,567.00	19,697,253.00	40,000.00	37,280,925.70	57,018,178.70

Schedule 12A - Transportation Expenses

Particulars			Current Year				Previous Year			
			XII Plan	Plan	Non Plan	Total	XII Plan	Plan	Non Plan	Total
A										-
	1	Maintenance of Vehicles			1,819,815.00	1,819,815.00				-
	2	Vehicle Running Expenses			415,599.00	415,599.00			1,541,818.00	1,541,818.00
	3	Insurance			95,186.00	95,186.00			57,489.00	57,489.00
			-	-	2,330,600.00	2,330,600.00	-	-	1,599,307.00	1,599,307.00

Schedule 13 – Repairs & Maintenance**Amount in Rs.**

Particulars	Current Year				Previous Year			
	XII Plan	Plan	Non Plan	Total	XII Plan	Plan	Non Plan	Total
a) House keeping	9,917,275.00		27,067,665.00	36,984,940.00	2,103,236.00		15,567,658.00	17,670,894.00
b) Gardening/Animal house			1,231,728.00	1,231,728.00			843,196.00	843,196.00
c) Maintenance of Buildings	-		3,747,597.00	3,747,597.00	828,623.00		3,277,891.00	4,106,514.00
d) Maintenance of Deptt/Campus	-		10,512,629.00	10,512,629.00	130,279,092.00		3,558,019.00	133,837,111.00
e) Maintenance of Office Equipment			621,891.00	621,891.00			631,965.00	631,965.00
f) Maintenance of Computers			639,410.00	639,410.00			588,152.00	588,152.00
h) Maintenance of Furniture & Fixtures				-				-
i) Maintenance of Lab Equipments				-				-
j) Guest house charges	447,200.00		466,801.00	914,001.00	2,756,660.00		567,995.00	3,324,655.00
k) Miscellaneous(Girls Hostel)			162,610.00	162,610.00		8,028,144.00	75,676.00	8,103,820.00
l) Miscellaneous(Boys Hostel)	-		236,901.00	236,901.00	396,636.00		256,007.00	652,643.00
m) Sanitation	-		7,832,585.00	7,832,585.00	179,824.00		2,773,602.00	2,953,426.00
n) Construction of Building & etc.				-				
o) Central Faculties				-				
p) Expenses On Girls Hostel	10,944.00			10,944.00				
q) Improvement of Education	90,827.00			90,827.00				
r) Maintenance Allowance				-				
s) Other Deduction	740.00			740.00				
Gross Total	10,466,986.00	-	52,519,817.00	62,986,803.00	136,544,071.00	8,028,144.00	28,140,161.00	172,712,376.00

Schedule 13A Finance Cost

Particulars			Current Year				Previous Year			
			XII Plan	Plan	Non Plan	Total	XII Plan	Plan	Non Plan	Total
A										
	1	Bank Charges	6,048.00		9,807.00	15,855.00	3,245.00	439.00	4,569.00	8,253.00
			6,048.00	-	9,807.00	15,855.00	3,245.00	439.00	4,569.00	8,253.00

Schedule 14 - Prior Period Expenses**Amount in Rs.**

	Particulars	Current Year	Previous Year			
1	NPS	9,814,310.19				
2	Maintenance of Building Plan	11,280.00				
3	Bank Charges Dr. Sudipta Shah	17.00				
4						
	Total	9,825,607.19	-			

BABASAHEB BHIMRAO AMBEDKAR UNIVERSITY, LUCKNOW
RECEIPTS AND PAYMENTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2015

RECEIPTS	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	PAYMENTS	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
I. Opening Balances			I. Expenses		
a) Cash in hand	250,271.00	51,191.00	a) Establishment	107,855,479.00	88,733,918.70
b) Bank Balances			b) Academic Expenses		
i. In Current Accounts			c) Administrative	209,603,294.00	88,825,031.00
ii. In Deposit Accounts			d) Transportation Expenses		-
iii. Savings account	380,879,328.04	781,789,653.66	e) Repair & Maintenance		-
			f) Prior period expenses		
II. Grant Received			II. Payments against Earmarked / Endowment fund	76,944,420.00	
a) From government of India	530,213,600.00	404,005,069.00	(EMF)		
b) From State Government					
c) from Other sources					
(Grants for capital & revenue exp/ to be shown separately if available)					
III. Academic Receipts	72,070,624.00	28,785,546.77	III.. Expenses against Sponsored Projects /Schemes		-
IV. Receipts against Earmarked / Endowment Funds(EMF)	54,747,440.00	-	IV. Expenses against sponsored Fellowship and Scholarship		
V. Receipts against Sponsored Projects /Schemes			V. Investments and Deposits Made		
			a) Out of Earmarked / Endowments funds		
			b) Out of own funds (Investments - Others)		
VI. Receipts against sponsored Fellowship and Scholarship			VI. Term Deposits with Scheduled Bank		

VII. Income on Investments from			VII. Expenditure of Fixed Assets and capital Works -in Progress		
a) Earmarked / Endowment funds			a) Fixed Assets	270,759,058.00	308,088,166.91
			b) Intangible assets	1,190,938.00	
b) Other investments			c) Capital Works -in- Progress		
VIII. Interest Received on			VIII. Other payments including statutory payments		
a) Bank Deposit					
b) Loan & Advance					
c) Saving Bank Accounts	23,879,450.00	32,526,400.00			
IX. Investment encashed			IX. Refund of Grants		
X. Term Deposits with Scheduled Banks encashed			X. Deposit & Advance		10,600,262.00
XI. Other Income (Including Prior period Income)			XI. Others payments	112,894,381.06	410,618,235.66
XII. Deposits & Advance			XII. Closing Balance		
			a) Cash in Hand	268,673.00	250,271.00
			b) Bank Balance		
			In current accounts		
			In Saving accounts	346,960,628.97	380,879,328.47
			In Deposit accounts	10,000,000.00	
XIII. Miscellaneous Receipts including Statutory Receipts	74,373,761.99	35,939,841.31			
XIV. Any Other Receipts	62,397.00	4,897,512.00			
Total	1,136,476,872.03	1,287,995,213.74	Total	1,136,476,872.03	1,287,995,213.74

**SCHEDULES FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR
THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2015**

BABA SAHEB BHIMRAO AMBEDKAR UNIVERSITY, LUCKNOW
PROVIDENT FUND ACCOUNT
BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2015

Liability	Current Year	Current Year	Previous Year	Previous Year	Assets	Current Year	Previous Year
GPF					Investment/FDR	51,127,656.00	41,127,656.00
Opening Balance	34,066,104.00		32,830,011.00		Int. accrued as on 31/03/15	4,191,062.98	
Less: Sub. for March					Sub. Due for March ,...		
	34,066,104.00		32,830,011.00		GPF		
Add: Subscription	8,444,653.00		6,967,393.00		CPF		
Less: Advance/withdrawal	(2,897,301.00)	39,613,456.00	(5,731,300.00)	34,066,104.00	UC due To CPF		
CPF					NPS-II		
Opening Balance	(1,322,480.00)		(2,064,980.00)				
Less: Sub. for March					Tax recovered from interest on		
Add: Subscription	999,000.00		742,500.00		Investments pending refund		
Add: Interest Credited					from income Tax Department		
Add: Sub for March							
Less: Advance/withdrawal		(323,480.00)		(1,322,480.00)			
University Contribution							
Opening Balance	333,180.00		333,180.00				
Less: Contribution for March							
Add: Contribution during the year	-				Cash in Hand		
Add: Interest Credited					Canara Bank A/c No-0190	818,255.00	5,688,771.00
Add: Contribution for March							
Less: Advance/withdrawal		333,180.00		333,180.00			
NPS Tier-II Account							
Opening Balance							
Less : Sub for March.....							
Add: Subscription in the year							
Add : Sub for March							
Add : Interest Credited							

Less : Advance / Withdrawal							
Earnest Money/Security Deposit	4,671,335.00	-		4,671,335.00			
Less: Repaid	1,616,450.00	3,054,885.00					
Interest Reserve							
Opening Balance	9,068,288.00		3,305,396.00				
Add: Excess of Income over Exp.	4,390,644.98	13,458,932.98	5,762,892.00	9,068,288.00			
Total		56,136,973.98		46,816,427.00		56,136,973.98	46,816,427.00

BABA SAHEB BHIMRAO AMBEDKAR UNIVERSITY, LUCKNOW
PROVIDENT FUND ACCOUNT
INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31/03/2015

Expenditure	Current Year	Previous Year	Income	Current Year	Previous Year
Interest Credited to:			Interest earned	201,773.00	5,763,735.00
GPF Account			Interest Accrued on FDR	4,191,062.98	
CPF Account					
University Contribution					
NPS Tier -II Account					
Bank Charges	2,191.00	843.00	Misc Income	-	
Excess of Income over Expenditure	4,390,644.98	5,762,892.00	Excess of Expenditure over Income		-
Total	4,392,835.98	5,763,735.00	Total	4,392,835.98	5,763,735.00

BABA SAHEB BHIMRAO AMBEDKAR UNIVERSITY, LUCKNOW
PROVIDENT FUND ACCOUNT
RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNTS FOR THE FINANCIAL YEAR 31/2013/2015

Receipts	Current Year		Previous Year		Payments	Current Year		Previous Year	
Opening Balance					GPF Advance	570,000.00		542,700.00	
Canara Bank A/c No-0190	5,688,771.00		2,376,679.00		GPF Withdrawal	2,811,945.00		5,696,334.00	
FDR	24,500,000.00	30,188,771.00	24,500,000.00	26,876,679.00	CPF Adv./ Withdrawal				
					University Contribution Withdrawal		3,381,945.00		6,239,034.00
GPF Subscription	8,444,653.00		6,967,393.00						
CPF Subscription	999,000.00		742,500.00		Investment during the year (FDR)		10,000,000.00		9,000,262.00
University Contribution - CPF		9,443,653.00		7,709,893.00					
					Bank Charges		2,191.00		843.00
Earnest Money/Security Deposit				4,570,869.00	Earnest Money/Security Deposit		1,616,450.00		
GPF/CPF Advance Recovery		484,644.00		507,734.00	Closing Balance:-	-	-	-	-
Interest Received -SB A/C	201,773.00		163,473.00		Canara Bank A/c No-0190	818,255.00		5,688,771.00	
Interest Received -FDR A/C		201,773.00	5,600,262.00	5,763,735.00	FDR	24,500,000.00	25,318,255.00	24,500,000.00	30,188,771.00
Misc Income									
Investment Encashed									
Total		40,318,841.00		45,428,910.00	Total		40,318,841.00		45,428,910.00

BABA SAHEB BHIMRAO AMBEDKAR UNIVERSITY,LUCKNOW
NPS ACCOUNT
BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2015

Liabilities	Current Year	Previous Year	Assets	Current Year	Previous Year
NPS Tier -I Account			NPS Tier -I Account		
Opening Balance	10,724,127.00	6,749,060.19	Subscription and Contribution for 3/15		
Add: Sub+UC	-	3,647,317.00	Investments/FDR	500,000.00	500,000.00
Less: Contribution paid	6,663,018.00		Balance at Bank	3,993,559.00	10,224,127.19
	4,061,109.00				
Excess of Income over Expenditure	432,450.00	327,750.00			
Total	4,493,559.00	10,724,127.19	Total	4,493,559.00	10,724,127.19

BABA SAHEB BHIMRAO AMBEDKAR UNIVERSITY,LUCKNOW
NPS ACCOUNT
INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31/3/2015

Expenditure	Current Year	Previous Year	Income	Current Year	Previous Year
Interest Credited to Subscribers Accounts			Interest Earned on Investment	432,450.00	328,103.00
Bank Charges	-	353.00			
Excess of Income over Expenditure	432,450.00	327,750.00	Add: Interest Accrued 31/03/....		
			Less: Interest Accrued 31/03/....		
Total	432,450.00	328,103.00	Total	432,450.00	328,103.00

BABA SAHEB BHIMRAO AMBEDKAR UNIVERSITY, LUCKNOW
NPS ACCOUNT
RECEIPT AND PAYMENTS ACCOUNT FOR THE FINANCIAL YEAR 2014-15

Receipt	Current Year		Previous Year		Payments	Current Year		Previous Year	
Opening Balance	10,224,127.00		6,249,060.00						
OP FDR	500,000.00	10,724,127.00	500,000.00	6,749,060.00	Investment		6,663,018.00		
NPS Account					NPS University Contribution	3,331,504.00			
Own Subscription	-		1,823,659.00		NPS Employee Contribution	3,331,514.00			
University Contribution	-	-	1,823,658.00	3,647,317.00					
Interest Received					Bank Charges		-		353.00
Int. on SB A/c & FD	432,450.00	432,450.00		328,103.00	Closing Balance	3,993,559.00		10,224,127.19	
					FDR	500,000.00	4,493,559.00	500,000.00	10,724,127.19
Total		11,156,577.00		10,724,480.00	Total		11,156,577.00		10,724,480.19

BABA SAHEB BHIMRAO AMBEDKAR UNIVERSITY, LUCKNOW
ET
BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2015

Liabilities	Current Year	Previous Year	Assets	Current Year	Previous Year
Opening Balance			Transfer To Non Plan A/c		6,721,584.06
Add: Surplus		6,721,584.06	Balance at Bank		-
Total		6,721,584.06	Total	-	6,721,584.06

BABA SAHEB BHIMRAO AMBEDKAR UNIVERSITY, LUCKNOW
ET
INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31/3/2015

Expenditure	Previous Year	Current Year	Income	Previous Year	Current Year
			Interest Earned on Investment		233,781.00
Trade Tax		324,391.00			
			Misc Income		6,812,194.06
Excess of Income over Expenditure		6,721,584.06			
Total	-	7,045,975.06	Total	-	7,045,975.06

BABA SAHEB BHIMRAO AMBEDKAR UNIVERSITY, LUCKNOW
ET
RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNTS FOR THE FINANCIAL YEAR 2015

Receipts	Current Year	Previous Year	Payments	Current Year	Previous Year
Opening Balance			Trade Tax	324,391.00	
Canara Bank A/c No-5047			Transfer To XII Plan A/c	6,721,584.06	
Interest Recd :					
Interest Received -SB A/C	233,781.00				
Interest Received -FDR A/C			Closing Balance:-	-	
			Canara bank Et 5047	-	
Misc Income	6,812,194.06				
Total	7,045,975.06	-	Total	7,045,975.06	-

BABA SAHEB BHIMRAO AMBEDKAR UNIVERSITY, LUCKNOW
EDUCATION
BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2015

Liabilities	Current Year	Previous Year	Assets	Current Year	Previous Year
FUND			Construction of SBBT Building	40,000,000.00	40,000,000.00
Opening Balance	50,215,638.00		Books & Journals	1,826,906.00	
			- Furniture	3,131,360.00	
			Computers	1,454,250.00	
Add: Surplus	124,955.00	50,215,638.00	Adv To Staff	24,408.00	24,408.00
	50,340,593.00		Investments/FDR	1,600,000.00	1,600,000.00
			Balance at Bank	2,303,669.00	8,591,230.00
Total	50,340,593.00	50,215,638.00	Total	50,340,593.00	40,024,408.00

BABA SAHEB BHIMRAO AMBEDKAR UNIVERSITY, LUCKNOW
EDUCATION
INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31/3/2014

Expenditure	Current Year	Previous Year	Income	Current Year	Previous Year
		-	Interest Earned on SB A/C	211,253.00	583,621.00
Bank Charges	337.00	17.00	Parasmita Mohanty Edu	25,045.00	
Contingency	70,975.00	114,606.00	Grant In aid		50,000,000.00
Equipment		77,750.00			
Guest Faculty		107,000.00			
Meeting Exp	40,031.00	68,610.00			
Excess of Income over Expenditure	124,955.00	50,215,638.00			
Total	236,298.00	50,583,621.00	Total	236,298.00	50,583,621.00

BABA SAHEB BHIMRAO AMBEDKAR UNIVERSITY, LUCKNOW
EDUCATION
RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNTS FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 31/03/2015

Receipts	Current Year	Previous Year	Payments	Current Year	Previous Year
Opening Balance			FDR		1,600,000.00
Canara Bank A/c No-5155	8,591,230.00		Adv To Staff		24,408.00
			Construction Of SBBT Building		40,000,000.00
			Contingency	70,975.00	114,606.00
Grant Recd :			Equipment		77,750.00
Grant Plan A/c			Guest Faculty		107,000.00
Grant in Aid		50,000,000.00	Meeting Exp	40,031.00	68,610.00
			Books & Journals	1,826,906.00	
Interest Recd :		-	Furniture	3,131,360.00	
Interest Received -SB A/C	211,253.00	583,621.00	Computers	1,454,250.00	
			Bank Charges	337.00	17.00
Parasmita Mohanty, Edu	25,045.00		Closing Balance:-		
			Canara Bank A/c No-5155	2,303,669.00	8,591,230.00
Total	8,827,528.00	50,583,621.00	Total	8,827,528.00	50,583,621.00

BABA SAHEB BHIMRAO AMBEDKAR UNIVERSITY, LUCKNOW
NEW COURSES
BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2015

Liabilities	Current Year	Previous Year	Assets	Current Year	Previous Year
FUND			Adv To Staff	224,983.00	119,427.00
Opening Balance	13,648,194.00		Extension of SBBT Building	10,000,000.00	10,000,000.00
Surplus	2,780,956.00	13,648,194.00	Balance at Bank	6,204,167.00	3,528,767.00
	16,429,150.00				
	-				
		-			
Total	16,429,150.00	13,648,194.00	Total	16,429,150.00	13,648,194.00

BABA SAHEB BHIMRAO AMBEDKAR UNIVERSITY, LUCKNOW
NEW COURSES
INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31/3/2015

Expenditure	Current Year	Previous Year	Income	Current Year	Previous Year
Adv To Staff	-	-	Interest Earned on Investment	518,367.00	37,823.00
Chemical -Food Micro & Toxicology	3,807,217.00	410,087.00			
Contingency	642,502.00	219,195.00	Income From fee	46,163,359.00	14,694,346.00
Equipment	2,803,902.00	186,668.00			
Furniture	3,098,408.00	113,400.00			
Guest Faculty	8,291,472.00				
Guest Faculty CMCA	282,000.00	36,000.00			
Guest Faculty Community College		9,000.00			
Guest Faculty Food Micro & Toxicology		57,511.00			
Guest Faculty M-Tech	439,000.00	49,403.00			
Purchase Of Chemical		2,018.00			
Advertisement	984,755.00				
Books & Journal	808,315.00				
Payment to house keeping	3,347,823.00				
Meeting Expenses	14,169.00				
Purchase of Computer	6,441,015.00				
Remuneration	55,100.00				
Training Program CET	382,500.00				
Transfer To Non Plan A/c	12,500,000.00				
Bank Charges	2,592.00	693.00			
Excess of Income over Expenditure	2,780,956.00	13,648,194.00			
Total	46,681,726.00	14,732,169.00	Total	46,681,726.00	14,732,169.00

BABA SAHEB BHIMRAO AMBEDKAR UNIVERSITY, LUCKNOW
NEW COURSES
RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNTS FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 31/03/2015

Receipts	Current Year		Previous Year		Payments	Current Year		Previous Year	
Opening Balance					Adv To Staff	105,556.00		119,427.00	
Canara Bank A/c No-5295	3,528,767.00	3,528,767.00			Chemical -Food Micro & Toxicology	3,807,217.00		410,087.00	
					- Contingency	642,502.00		219,195.00	
					Equipment	2,803,902.00		186,668.00	
Grant Recd :	-	-			Extension of SBBT Building			10,000,000.00	
Grant Plan A/c				-	Furniture	3,098,408.00		113,400.00	-
Grant in Aid					Guest Faculty	8,291,472.00			
					Guest Faculty CMCA	282,000.00		36,000.00	-
Interest Recd :					Guest Faculty Community College			9,000.00	
Interest Received -SB A/C	518,367.00		37,823.00		Guest Faculty Food Micro & Toxicology			57,511.00	
Interest Received - FDR A/C		518,367.00		37,823.00	Guest Faculty M-Tech	439,000.00		49,403.00	
					Purchase of Chemical			2,018.00	
Income From Fee	46,163,359.00	46,163,359.00	14,694,346.00	14,694,346.00	Advertisement	984,755.00			
					Books & Journal	808,315.00			
					Payment to house keeping	3,347,823.00			
					Meeting Expenses	14,169.00			
					Purchase of Computer	6,441,015.00			
					Remuneration	55,100.00			
					Training Program CET	382,500.00			
					Transfer To Non Plan A/c	12,500,000.00			
					Bank Charges	2,592.00	44,006,326.00	693.00	11,203,402.00
					Closing Balance:-				
					Canara Bank A/c No-5295		6,204,167.00	3,528,767.00	
								-	3,528,767.00
Total		50,210,493.00		14,732,169.00	Total		50,210,493.00		14,732,169.00

NOTE ON ACCOUNTS

NOTES OF THE BALANCE SHEET AND INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT ALONG WITH RECEIPTS & PAYMENT ACCOUNT FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2015

1. Figures of the previous year have been regrouped to make them comparable with that of the current year.
2. All fixed Assets are shown at cost less depreciation except Fixed Assets purchased under Earmarked Fund. No Depreciation has been charged on such Fixed Assets.
3. Depreciation on fixed assets has been provided as per WDV method at the rates prescribed as per Income Tax Act, 1961. Depreciation for full year has been charged if the asset is put to use/purchased upto 30-09-2014 and at half rate if purchase on or after 01-10-2014.
4. The Rectification in respect of the Annual Accounts of Previous Year has been made on the basis of the CAG Audit Observation/Suggestions..
5. Certificates of the AG Office, Allahabad on such Annual Accounts have been duly considered with while framing the Annual Accounts of Financial Year 2014-15 and such figures have been regrouped wherever necessary.

Staff Strength and Students Enrolment as on 31.03.2015 under Non-Plan and Plan (including sanctioned under OBC expansion Scheme)

(i)	Teaching	Professor (AGP-10000)	Associate Professor (AGP-9000)	Sr. Scale/Selection Grade of Asstt. Professor (AGP- 7000/8000)	Assistant Professor (AGP-6000)	Others	Total
	(Staff Strength)	9+4*=13	29+1**+1#=31	25\$	33+5#=38	101+6#=107	(Staff Strength)
(ii)	Non-Teaching	Group A	Group B	Group C	Group D (now in Group C)		Total
	(Staff Strength)	12	22+2#=24		57+4#=61		91+6#+97
(iii)	Total Enrolment:	Under Graduate	Post Graduate	5 years integrated course	M.Phil	Ph.D	Certificate/ Diploma
	2818	411	1828	21	94	451	13
(iv)	Teacher-Student ratio						1:26.33
(v)	Teaching to Non Teaching Ratio (excluding hostel staff)						1:089

*4 Associate Professor Promoted under CAS

**1 Assistant Professor Promoted on Associate Professor under CAS

\$Promoted under CAS.

#CSSEIP and RCA faculty details have been included.

**SEPARATE AUDIT REPORT OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA ON THE
ACCOUNTS OF BABASAHEB BHIMRAO AMBEDKAR UNIVERSITY, LUCKNOW
FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2015**

We have audited the attached Balance sheet of Babasaheb Bhimrao Ambedkar University, Lucknow as at 31st March 2015 the Income & Expenditure Account and Receipts & Payments Accounts for the year ended on that date under section 19 (2) of the Comptroller & Auditor General's (Duties, Powers & Conditions of Service) Act, 1971 read with section 30 of the Babasaheb Bhimrao Ambedkar University's Act, 1994 These financial statements are the responsibility of the management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

2. This Separate Audit Report contains the comments of the Comptroller & Auditor General of India (C&AG) on the accounting treatment only with regard to classification, conformity with the best accounting practices, accounting standards and disclosure norms. Etc. Audit observation on financial transaction with regard to compliance with the Law, Rules & Regulation (Propriety and Regularity) and efficiency- cum-performance aspects, etc. If any are reported through inspection Reports/CAG's Audit Reports separately.
3. We have conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. The standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements. An audit includes examining, on a test basis. Evidences supporting the amounts and disclosure in the financial statements. An audit includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management as well as evaluating the overall presentation of financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.
4. Based on our audit we report that.
 - i. We have obtained all the information and explanations excepts those mentioned in this report. Which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit:
 - ii. The Balance sheet, Income and Expenditure Account and Receipts and Payments Account and Schedules to the Balance Sheet dealt with by this report have not been drawn up properly in the format of accounts as approved by Ministry of HRD vide its order No 29-4/2012- FD dated 17.4.2015.
 - iii. In our opinion, proper the books of accounts and other relevant records have been maintained by the University as required under section 30 of the Babasaheb Bhimrao Ambedkar University. Act, 1994 in so far as it appears from our examination of such books.
 - iv. We further report that

(A) Balance Sheet**(A.1) Fixed Assets (Schedule-4) Rs. 137.02Crore**

- (A.1.1) The University incurred Rs. 4.22 Crore (March 2014) on the Installation of Central Air conditioning system in Central Library of the University under the 11th plan, but it was not capitalized under Library Equipment head of Fixed Assets in the Balance sheet during the year 2013-14 and 2014-15. This resulted in the understatement of Capital Funds and fixed undercharged by Rs. 0.90 Crore and surplus of income overstated by the same amount.
- (A.1.2) Although the University procured fixed assets consting Rs. 131.51 lakh (Equipment Rs. 28.04 lakh, Furniture Rs. 30.98 lakh Books and Journals Rs. 8.08 lakh and Computers Rs. 64.41 Lakh) and depicted it under the income and expenditure Account- New courses during the year 2014-15. They were not been capitlized under the fisec Assets of balance sheet pertaining to the main accounts of the University. As a result the Fixed Assets and Capital Funds were understated by Rs. 88.16 lakh each. Consequently, depreciation was undercharged by Rs-43.35 lakh and surplus of income overstated by the same amount.
- (A.1.3.) Furniture consting Rs. 103.02 lakh was purchased (March 2014) by Samaj Kalian Nirman Nigam Lucknow for Legal Studies Building of the University under 11th plan and was handed over the University in the same month by the Nigam but the University did not capitalize in under the furniture head of fixed assets of the balance sheet for the year 2013-14 or 2014-15. This resulted in the understatement of capital fund and fixed Assets. In the balance sheet by Rs. 92.72 lakh each. Consequently, depreciation was unders charged by Rs. 10.30 lakh and surplus of income overstated by the same amount.
- (A.1.4.) Although Education department of the University purchased fixed assets costing Rs. 64.12 lakh (Books and Journals Rs. 18.27 lakh , Furniture Rs. 31.31 lakh and Computers Rs. 14.54 lakh) during the year 2014-15 they were not capitalized under the head fixed assets of the main Account of the University. This resulted in the understatement of fixed Assets and capital fund in the Balance sheet by Rs. 41.31 lakh each. Consequently, depreciation was undercharged by Rs. 22.81 lakh and surplus of income overstated by the same amount.
- (A.1.5.) The University procured 16 meter high mast lighting system and other accessories costing Rs. 55.36 lakh for the university campus and the expenditure was charged under the head Maintenance of Non-plan Grant during the year 2014-15 However, they were not capitalize under the head fixed asset's resulting in the understatement of Fixed assets in the balance sheet and excess of income over expenditure in the Income and Expenditure Accounts by Rs. 49.06 lakh consequently, depreciation was under charged by Rs. 22.81 lakh and surplus of income overstated by the same amount.
- (A.1.6) The University incurred Rs. 53.47 lakh on construction of building road and Examination Hall, Rs. 14.09 lakh on procurement of equipment, Rs. 0.10 lakh on purchase of books and journals from non-Recurring Grant of RCA and Rs. 11.74 was incurred on purchase of furniture

from recurring grant of RCA But the total cost of fixed assets amounting to Rs. 79.40 lakh was not capitalized under the fixed assets in the Balance Sheet. This resulted in the understatement of fixed Assets and Capital Fund in the Balance Sheet by Rs. 75.56 lakh each. Consequently, depreciation was under charged by Rs. 3.84 lakh and surplus of income overstated by the same amount.

- (A.17.) Two lifts costing Rs 48.47 lakh installed in the Central Library of the University under the 11th plan during the years 2014-15 were not capitalized under Library Equipment head of Fixed Assets (schedule-4) of the Balance Sheet. As a result the capital fund and fixed Assets in balance sheet were understated to be Rs. 41.20 lakh consequently, deprecation was under charged by Rs. 7.27 lakh and surplus of income overstated by the same amount.
- (A1.8.) Although M/s Hindustan Enterprises delivered (March 2014) materials costing Rs. 38.38 lakh and M/s Godrej & Boyce Mfg. Co. Ltd. delivered materials costing Rs. 4.05 lakh in December 2014 and submitted their bill in the same month, the university did not make payment of Rs. 42.43 lakh during the year 2014-15 and they are neither reflected under Current Liabilities nor were capitalized under the concerned head of the Fixed Assets in the balance sheet for the year 2014-15 This resulted in understatement of current liabilities, and fixed Assets the that extent of Rs. 42.43 lakh each.
- (A.1.9) UGC had allocated on amount of Rs. 500.00 lakh for earth filling in low area at place where construction was proposed during XIth plan under Building component in March, 2009. Out of this, the University released Rs. 35.22 lakh to CPWD during the year 2013-14 and treated it as final expenditure and capitalized it, but as per form 65 of March, 2015 the CPWD had not utilized it as of March 2015 this resulted in the overstatement of Capital Fund and fixed Assets to that extent.
- (A.1.10) Although the University purchased furniture costing Rs. 2.57 lakh from the Guest House fund during the year 2014-15 but it was not capitalized in the Balance sheet of the University. As a result, the Capital Fund and Fixed Assess of the Balance Sheet were understated by Rs. 2.44 lakh, consequently, depreciation was under changed by Rs. 0.13 lakh and surplus of imcome overstated by the same amount.
- (A..1.11) As per Annual Accounts for the year 2014-15 the University reflected seven works costing Rs. 25.43 crore under work in progress (schedule 4 fixed Assets) Whereas CPWD had reflected Rs. 24.76 crore under work in progress its statement. Thus the University reflected the excess advances of Rs. 0.67 crore further, CPWD had completed three works costing Rs. 374.08 lakh against advance of Rs. 242.24 lakh received as of march 2015 but they were not capitalized consequently, the Fixed Assets, were understated and work in progress were overstated to that extent.

(A.2) Current Assets. (Schedule-5 and 5A)

Loans and Advances and cash and bank Balances Rs. 58.42 crore. The university has there, Girls's Hostel and three Boys Hostel, All the hostel have their separate Bank Accounts and respective cash books. These books of Accounts reflected the following deficiencies.

- (A.2.1.) Rs. 6.01 lakh on the account of admission fee was not transferred to the main Annual Account of the University for the year 2014-15. The resulted in understatement of income in the and Expenditure Account and understatement of Closing Balance under Current Assets. In the main balance sheet as on 31st march 2015 of the University.
- (A.2.2.) Caution money of Rs. 14.39 lakh lying with the Hostels was not reflected in the Current Liability and Current Assets, In the Balance sheet of the University As a result, the Current Libiliaty and Current Assets, were understated to that extent.
- (A.2.3.) The Hostels did not transfer of Rs. 8.21 lakh (Rs. 5.38 lakh electricity charges and Rs. 2.83 lakh Room rental charges) to the main account of the University. This resulted in the understatement of closing balance under Current Assets in the Balance sheet and understatement of income in the Income and Expenditure Account.
- (A.2.4.) The University had not reflected the consolidated closing balances of Rs. 48.25 lakh pertaining to the Boys and Girls, Hostels Accounts in the main account of the University. This amount remained outside the main account of the University resulting in understatement of income in the Income and Expenditure account and closing balance under Current Assets of the Balance Sheet.
- (A.2.5.) The interest amount of Rs. 3.85 lakh earned by the Hostels from the saving bank accounts up to March 2015 was not reflected in the main account of the University, This resulted in the understatement of closing balance under current assets, in the Balance Sheet and understatement of income in the Income and Expenditure Account.
- (A.2.6.) The Hostels realized Rs. 4.83 lakh on the account of guest charge and other receipts up to march, 2015 but in was not included in the main account as income of the University. This resulted in the understatement of Current Assets. In the Balance sheet and understatement of Income and Expenditure Account.
- (A2.7.) The Cash Book of Guest House had a closing balance of Rs. 1.31 lakh as of 31st march 2015 while Bank pass book showed balance of Rs. 4.99 lakh. The differences of Rs. 3.68 lakh (Rs. 4.99 lakh-Rs. 1.31 lakh) had not been reconciled by preparing Bank Reconciliation statement Besides, the closing balances had not been incorporated in the AnnualAccounts of the University As a result, the Current Liability as Current Assets, were understated to that extent.
- (A.2.8.) The room rent chages of Rs. 6.49 lakh realized by the Guest House during the year 2014-15 was not transferred to main account of the University resulting in the under statement of income in the Expenditure Account and closing Balance under Current Assets in the Balance sheet.
- (A.2.9.) As per Balance sheet of NPS Account, the University had shown Rs. 5.00 lakh under investment/FDR of the asset side of the Balance sheet, But it was not reflected under the Current Assets of the Balance sheet of the main Account of the University. This resulted in understatement of Current Assets, on the assets side and Current Liability of Capital fund, in the Balance sheet to that extent.

- (A.2.10) As per Balance sheet of Provident Fund Account, the University had shown Rs. 511.28 lakh under investment/FDR of asset side of the Balance sheet but it was not reflected under the current Assets in the Balance Sheet of the main Account of the University. This resulted in understatement of Current Assets of assets side and Current Liability of capital fund in the balance sheet of that extent.
- (A.2.11) As per Balance Sheet of Provident fund Account for the year 2014-15, the University had shown Rs. 30.55 lakh on account of Earnest Money and security Deposit on the liability side of Balance sheet of provident fund Account, whereas, the amount of Earnest money and security Deposit are to be refunded to the contractor hence it should have been shown on liability side of balance sheet of the Main account of the University but it was not followed by the University. As a result, the Current Liability and Current Assets were understated to that extent.
- (A.2.12) In the Balance sheet as on 31st March, 2015, the University reflected Rs. 27.68 lakh on account of retention amount under the Current Liabilities as against Rs. 233.06 lakh of committed liabilities under the head of Current Liabilities. Thus, the University reflected less Current Liabilities of Rs. 205.38 lakh (Rs. 233.06 lakh - Rs. 27.68) under Current Liabilities in Balance Sheet. This resulted in the understatement of Current Liabilities and understatement of fixed Assets sheet as on 31st March, 2015.
- (A.2.13) Under DST Center for Policy Research, Rs. 2.47 lakh was withdrawn for Field visit workshop (December 2014) by the Coordinator but it was not utilized till the end of March 2015. Further it was final expenditure in the Annual Account, As the University did not reflect it as advance in the Current Assets of the balance sheet, "Capital Fund" and Current Assets, were understated to that extent.

(A.3) Current Liability & Provision: (Schedule-3)

As per new format of account. The unutilized grant should be shown under Current Liability. The University, however, had shown the unutilized grant of Rs. 2482.15 lakh in corpus/capital fund instead of Current Liability, This resulted in understatement of Current Liability and overstatement of corpus/capital fund by Rs. 2482.15 lakh each.

(B) Income and Expenditure Account

Grant -in-aid/ Subsidies(schedule-6) Rs. 53.02 Crore

Although the University shown income of Rs. 41.91 lakh by way of accrued interest towards income side of income and expenditure Account and the assets side of Balance Sheet of Provident Fund Account but the University did not show the accrued interest into main account of the University for the year 2014-15. This resulted in understatement of surplus and understatement of Current Assets in the Main Balance sheet to that extent.

(C) General

- (C.1) The University had separately prepared the Receipts and Payments Account, Income and Expenditure Account and Balance Sheet for New Course, Education ET, NPS and General provident fund Account and closing balance relating to them have been reflected under Current Liability and Current Assets of the Balance sheet of main Account of the University. But details of transactions of these Accounts have not been reflected in the main account of the University. Although this was pointed out in the previous audit report, no corrective action for consolidation of these accounts in the Main Account of the University has been taken by the management.
- (C.2) It is noticed that BBAU has not disclosed its accounting policy in regard to retirement benefits (i.e. Pension, accumulated leave encashment and gratuity) However, provision in this regard had not been made on actuarial basis as required by MHRD new format of accounts and As-15 of ICAI.
- (C.3.) BBAU has not disclosed its significant accounting policies followed its preparation of its accounts, this is violation of the format of accounts issued by the Ministry of HRD.

(D) Grant-in-aid

The University is mainly funded by Grants in aid from the UGC during the Financial year 2014-15 the University received Rs. 5779.85 lakh (XI Plan Rs. 3.42 lakh+XII Plan Rs. 4252.60 lakh+Non Plan Rs. 1046.11 lakh+ others (EMF) Rs. 477.72 lakh) and generated funds of Rs 1774.14 lakh from internal sources.


The University is having opening balance of grant-in-aid of Rs. 3808.79 lakh (XI Plan Rs.1249.89 lakh+XII Plan Rs 357.48 lakh+Non plan Rs. 905.19 lakh+ others (EMF) Rs. 1296.23 lakh) out of total available funds of Rs. 11362.78 lakh the University incurred an expenditure of Rs. 7893.20 lakh (XI Plan Rs. 1345.53 lakh+ XII Plan 2604.38 lakh + Non Plan Rs. 2380.98 lakh+Others (EMF) Rs. 1562.32 lakh) leaving a closing balance of Rs. 3469.58 lakh (XI Plan Rs. 361.48 lakh+ XII Plan RS. 2069.32 lakh + Non Plan Rs. 51.35 lakh + Others (EMF) 987.43 lakh) as on 31th March 2015.

- V. Subject to our observation in the proceeding paragraphs, we report that the Balance Sheet, Income & Expenditure Account and Receipts & Payments Accounts dealt with by this report are in agreement with the books of accounts.

VI. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said financial statements read together with the Accounting Policies and Notes on Accounts, and subjects to the significant matters stated above the other matters mentioned in Annexure to this Audit report give a true and fair view in conformity with accounting principle generally accepted in India.

- (a) **In so far as it relates to the Balance sheet of the state of affairs University as at 31st March, 2015 and.**
- (b) **In so far it relates to Income and Expenditure Account of the surplus, for the year ended on that date.**

For and behalf of the C&AG of India



Principal Director of Audit (Central)

Place: Lucknow

Date:

ANNEXURE

1. Adequacy of Internal Audit System

The University does not have an Internal Audit wing. Besides, no Internal Audit Manual has been prepared.

In view of this Internal Audit system appears to be in adequate.

2. Adequacy of Internal Control system

Internal Control system in the University reflected the following discrepancies.

Non- conducting of Physical verification of Fixed Assets/ Inventory.

Non-Preparation of Annual Accounts in the format prescribed by the Ministry of Human Resource Development.

Non capitalization of Fixed Assets acquired during the year.

Diversion of funds in contravention of UGC guidelines.

Non- adjustment of advances.

The key post of Finance Officer has been lying vacant for many years.

Non-consolidation of accounts of New Courses, Education, ET, NPS and General Provident Fund into the main accounts of the University.

3. System of Physical verification of fixed Assets

No Physical verification of fixed Assets was carried out by University during 2014.15

As a result, the existence of these assets could not be vouched in Audit.

4. System of Physical verification of inventories.

No Physical verification of inventory was carried out during 2014-15.

5. Regularity in payment of statutory dues.

The University is regular in paying its statutory dues.

Dy. Director of Audit (CE)



BABASAHEB BHIMRAO AMBEDKAR UNIVERSITY

(A Central University)

Vidya Vihar, Rai Bareli Road,
Lucknow 226025